

राष्ट्रीय नवीन मेल

डालटनगंज (मेदिनीनगर) एवं रांची से एक साथ प्रकाशित

www.rastriyanaveenmail.com • डालटनगंज • श्रावण शुक्ल पक्ष 08 • विक्रम संवत् 2080 • गुरुवार, 24 अगस्त 2023 • वर्ष-29 • अंक-308 • पृष्ठ-12 • मूल्य ₹ 2.00



अंतरिक्ष में लहराया तिरंगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत

भारत ने रचा इतिहास, चांद पर पहुंचा चंद्रयान-3

40 से अधिक दिनों के बाद लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा

चेन्नई। भारत के चंद्रमा लैंडर ने योजना के अनुसार, बुधवार शाम को सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर अपने चारों पैर आसानी से और सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिए और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। 40 दिनों से अधिक समय तक लगभग 3.84 लाख किमी की यात्रा करने के बाद लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। लैंडिंग के साथ 600 करोड़ रुपये के चंद्रयान-3 मिशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। शेष भाग चंद्रमा रोवर है जो लैंडर से नीचे लुढ़क रहा है, चारों ओर घूम रहा है और प्रोग्राम किए गए प्रयोग कर रहा है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में एक प्रगोदान मॉड्यूल (वजन 2,148 किलोग्राम), एक लैंडर (1,723.89 किलोग्राम) और एक रोवर (26 किलोग्राम) शामिल है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, चंद्रमा रोवर में लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) है। अपनी ओर से, लैंडर भी अपने पेलोड के साथ उसे सॉपि गए कार्यों को पूरा करेगा: तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण (आईएलएसए), प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का



झारखंड के वैज्ञानिक सोहन की अहम भूमिका

सोहन चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बेटे हैं उस टुकड़े का, जिन्हें हर महीने मात्र तीन हजार रूपए की सैलरी मिलती थी। लेकिन इतनी कम सैलरी में भी वह अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई पर 2500 रूपए खर्च कर देते थे। हर माता पिता के जैसे ही उनकी भी इच्छा थी कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। बेटा भी अपनी मां से कहा करता था कि एक दिन पूरी दुनिया आपको मेरे काम से पहचानेगी। बेटे ने आखिर अपनी इस बात को सच कर दिखाया। आज पूरी दुनिया उनके काम से उनके माता-पिता को जानने लगी है। ये कहानी झारखंड के खूंटी जिले के एरेन्डा के रहने वाले सोहन यादव की है। आज उनके परिवार के साथ ही पूरे देश को उनपर गर्व है। सोहन यादव साइंटिस्ट हैं और भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन के टीम के सदस्य भी हैं। बुधवार को जब चंद्रयान चांद पर लैंडिंग करने वाला है। तो पूरे देश के साथ ही सोहन यादव के परिजन भी इसकी प्रतीक्षा में हैं। अतिनक्सल प्रभावित जिले के तपकरा में उनके निवास स्थान पर उनके मम्मी-पापा, भैया और भाभी चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर जांच (एलपी)। नासा के एक निष्क्रिय लेजर ट्रेडरिफ्लेक्टर परे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए समायोजित किया गया

है। इसरो ने कहा कि लैंडर और रोवर का मिशन जीवन 1 चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिवस है। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय

मॉडिक माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रो-पोलरिमीट्री है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा ले जाए

देश के लिए ऐतिहासिक क्षण : प्रधानमंत्री



ऐतिहासिक क्षण है। मैं दक्षिण अफ्रीका में हूँ, लेकिन सभी भारतीयों की तरह, मैं भी चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आमतौर पर हम कहते हैं, चंद्रा मामा दूर के, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहेगी चंद्रा मामा दूर (पर्वत) के। हमारा मिशन उसी मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। यह सफलता मानवता की सफलता है। मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी देश ऐसी उपलब्धियाँ हासिल करने में सक्षम हैं।

इन लोगों ने निभाये अहम किरदार

चंद्रयान-3 को पूरा करने के लिए फनीमेल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने भी अहम किरदार निभाया। चंद्रयान-3 को सफल बनाने में एस सोमनाथ के अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुलेन, मिशन डायरेक्टर मोहना कुमार, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकुण्णन नायर, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एम शंकरन और लॉन्च अंधाराइजेशन बोर्ड प्रमुख ए राजराजन ने भी अहम किरदार निभाया।

यह अद्भुत और अविस्मरणीय : सीएम

भारत और इसरो की इस सफलता पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा 'अद्भुत!! अविस्मरणीय!! तिरों की आन-बान और शान चंद्रमा पर पहुंच गया। देश के हमारे महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लगन की बदौलत चंद्रयान-3 आज चंद्रमा पर उतर गया। अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देश एक फिर पुरजोर तरीके से स्थापित हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इसरो की पूरी टीम सहित समस्त देशवासियों को अनेक-अनेक बधाई और जोहार। जय विज्ञान! जय हिंद!'

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब क्या होगा?

योजना के अनुसार, कुछ देर बाद लैंडर विक्रम की बैलौ से रोवर प्रज्ञान एक पैनल को रैप के रूप में इस्तेमाल करके चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। रोवर में पहिए और नेविगेशन कैमरे लगे हैं। यह चंद्रमा के परिवेश का इन-सीटू (यथास्थान) विश्लेषण करेगा और जानकारी लैंडर विक्रम के साथ साझा करेगा। लैंडर विक्रम धरती पर वैज्ञानिकों से सीधे कम्युनिकेट करेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बारे में अमूल्य जानकारी पृथ्वी पर हम तक आ सकेगी।

कैसे हुई चंद्रयान-3 की लैंडिंग?

विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगे। यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 7.4 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकेंड थी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर था। 6.8 किमी की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। अगला लेवल 800 मीटर था। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर

किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगे।

150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकेंड थी। यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकेंड थी। यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकेंड थी।

किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगे।

150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकेंड थी। यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकेंड थी। यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकेंड थी।

मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की, कहा सड़क निर्माण की हो मॉनिटरिंग



नवीन मेल संवाददाता रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अगर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित इंजीनियर और टेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फॉरस्ट क्लियरेंस से लंबित सड़क परियोजनाओं की ली जानकारी : मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य में फॉरस्ट क्लियरेंस से संबंधित 13 सड़क परियोजनाएं हैं। इनमें पांच में वन विभाग द्वारा एनओसी मिल चुका है, जबकि 8 सड़क परियोजनाएं फॉरस्ट क्लियरेंस की प्रतीक्षा में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निदान निकालें, ताकि सड़कों के निर्माण में आ ११ पृष्ठ 11 पर

नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे सात वाहनों को जलाया

नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद। महडंड से कालापहाड़ कारखार रोड में निर्माण कार्य करा रहे संवेदक की तीन हाईवा, एक रोलेर, एक ग्रेंडर, एक बाइक और एक ट्रैक्टर समेत करीब सात वाहनों में आग लगाकर प्रतिबंधित संगठन ने जला दिया। यह घटना बुधवार की शाम करीब 5:00 बजे की बताई जाती है। साथ ही मुंशी के साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया गया है। महडंड के ओपी प्रभारी तिलेश्वर प्रसाद रजक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना हुई है। परंतु देर शाम होने के कारण घटना स्थल पर नहीं जा सके है। उन्होंने इस घटना में माओवादी दस्ते का हाथ होने की आशंका जताई है। उधर संवेदक अजीत सिंह ने बताया कि तीन हाईवा, एक ट्रैक्टर, एक रोलेर, एक ग्रेंडर और एक बाइक को जलाया है। 15-20 की संख्या में नक्सली शामिल थे। वहीं गोटा गांव के मुंशी विजय यादव के साथ मारपीट की गई है। संवेदक मंजिआंव के मोरबे गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि दस करोड़ रुपये की लागत से कालापहाड़ से महडंड तक पीएमजीएसवाई से सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है।

चाईबासा में चार दिनों में चौथी हत्या, नक्सलियों का हाथ होने की आशंका

रांची। चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) में एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। उसका शव गोईलकेरा थाना क्षेत्र के बिला गांव चौक के पास सड़क किनारे पाया गया। चार दिनों में इस तरह की चौथी घटना है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने ही यह वारदात अंजाम दी है। एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि जिस स्थान से शव बरामद किया गया है, उस स्थान पर नक्सलियों का कोई पचा नहीं मिला है। हत्या नक्सलियों ने की है या फिर इसके पीछे कोई और है, यह जांच से जाहिर होगा। इसके पहले तीन दिनों में नक्सलियों ने तीन ग्रामीणों को पुलिस की मुखबिरी के आरोप में मौत के घाट उतारा है।

चाईबासा में चार दिनों में चौथी हत्या, नक्सलियों का हाथ होने की आशंका

रांची। चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) में एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। उसका शव गोईलकेरा थाना क्षेत्र के बिला गांव चौक के पास सड़क किनारे पाया गया। चार दिनों में इस तरह की चौथी घटना है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने ही यह वारदात अंजाम दी है। एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि जिस स्थान से शव बरामद किया गया है, उस स्थान पर नक्सलियों का कोई पचा नहीं मिला है। हत्या नक्सलियों ने की है या फिर इसके पीछे कोई और है, यह जांच से जाहिर होगा। इसके पहले तीन दिनों में नक्सलियों ने तीन ग्रामीणों को पुलिस की मुखबिरी के आरोप में मौत के घाट उतारा है।

शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई झारखंड- बंगाल के 32 ठिकानों पर छापेमारी

रांची। झारखंड में सिंडिकेट बनाकर शराब के ठेके हासिल करने से जुड़े मामले में ईडी ने बुधवार को झारखंड, बंगाल में शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी व उनके सहयोगियों के यहां दबिश दी। 15-20 की संख्या में नक्सली शामिल थे। वहीं गोटा गांव के मुंशी विजय यादव के साथ मारपीट की गई है। संवेदक मंजिआंव के मोरबे गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि दस करोड़ रुपये की लागत से कालापहाड़ से महडंड तक पीएमजीएसवाई से सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है।

शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी व अमरेंद्र तिवारी के इन ठिकानों पर छापा

- तिवारी के देवघर स्थित गोदाम जो होटल सिद्धार्थ के समीप है
- देवघर के बंयास टाउन स्थित तिवारी का आवास
- मैहर डेवलपर्स, वसुंधरा गार्डन, फ्लैट नंबर- 902 ए
- मेसर्स मैहर डेवलपर्स के विजयपुर, दुमका ऑफिस
- मेसर्स सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीलरी रोड, दुमका
- दुमका मुफ्फसील में शराब गोदाम जो खाता नंबर 91 पर अवस्थित है
- मेसर्स तिवारी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, एयरपोर्ट रोड, दुमका
- मेसर्स संताल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डी-2 हरमू हाउसिंग स्थित कार्यालय व जोगेंद्र तिवारी के आवास
- जोगेंद्र तिवारी के भाई अमरेंद्र तिवारी के बेकरबांध, कौशिकी राधिका रीजेंसी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में छाप
- अमरेंद्र व जोगेंद्र तिवारी के महिजाम स्टेशन रोड स्थित दो अलग अलग आवास
- मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव का आवास रागिनी विल्ला, बरियातू।
- नेक्सजेन के मालिक विजय कुमार सिंह का ब्लेयर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट
- श्रवण जालान का जालान रोड, रांची अपर बाजार स्थित घर
- विकास कुमार अग्रवाल, 95 केबी मार्ग, नीवर खजांकी तालाब, बोडाम बाजार, हजारीबाग
- रीतेश कुमार शर्मा, आलौकिक हार्ट्स एलाएलपी के पार्टनर के ग्रेवाल अपार्टमेंट, बेकरबांध, धनबाद स्थित आवास पर छाप ११ पृष्ठ 11 पर

आवास पर भी छापेमारी की। ये तिवारी के पार्टनर रहे हैं। बिहार के दोनों भी शराब कारोबार में जोगेंद्र तिवारी के पार्टनर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ११ पृष्ठ 11 पर

टीएसपीसी के तीन समर्थक हथियार के साथ गिरफ्तार

मेदिनीनगर। पलामू छतरपुर थाना की पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के तीन सक्रिय समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से देसी कट्टा, गोली, मोबाइल, पल्सर बाइक और प्रचुर मात्रा में दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु भी बरामद की गई है। बताया गया है कि गिरफ्तार तीनों समर्थक टीएसपीसी के कमांडर नगीना जी द्वारा संचालित होते थे और उन्हीं के दस्ते के लिए वे समान पहुंचाने जा रहे थे। बीच में पुलिस को इसकी सूचना मिली और वे गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार तीनों टीएसपीसी समर्थकों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पकड़े गए टीएसपीसी समर्थकों में गोविन्द यादव, शंभु परहिया, शिवपुकार कुमार उर्फ मोती साव का नाम शामिल है। इन टीएसपीसी समर्थकों के पास से पुलिस ने दो देशी कट्टा एवं दो जिंदा गोली, एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन, ११ पृष्ठ 11 पर

व्यवस्था

11वीं 12वीं में पढ़नी होंगी कम से कम 2 भाषाएं

साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षाएं

नई दिल्ली। बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। छात्रों को इन परीक्षाओं में से अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों में विषयों की समझ का मूल्यांकन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई पहल से कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता में कमी आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान विषयों का चयन सीमित नहीं रहेगा। छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी पसंद के विषय चुनने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कम से कम दो भाषाएं पढ़नी होंगी। मंत्रालय का कहना है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इन भाषाओं में से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। दरअसल, बुधवार को केंद्रीय शिक्षा



मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर एक संयुक्त व महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। गौरतलब है कि कस्तूरिगंगन के मार्गदर्शन में स्टीरिंग समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करिकुलम फ्रेमवर्क पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कस्तूरिगंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट व करिकुलम फ्रेमवर्क सरकार को सौंप दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के लिए ही इसे एनसीईआरटी को दिया है। गौरतलब है कि एनसीईआरटी स्कूलों की शिक्षा के लिए आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हाल ही में स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। इस 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति' में कई शिक्षाविद, ११ पृष्ठ 11 पर

राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति बनाई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार और मूल भारतीय सोच पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 3 से 12 तक के लिए भविष्य की शिक्षण और शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर पहली ओरिएंटेशन बैठक बुधवार को हुई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमें विश्वास है कि नई पाठ्यपुस्तकें सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। खासतौर पर जब दुनिया भारत से बहुत उम्मीद कर रही है, जब पीएम ने अमृत काल का सपना दिखाया है, ऐसे समय में नई पाठ्यपुस्तकें आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हाल ही में स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। इस 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति' में कई शिक्षाविद, ११ पृष्ठ 11 पर

तेज बारिश के बीच वज्रपात से बुजुर्ग की मौत, चार छात्राएं घायल



नवीन मेल संवाददाता। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो अलग-अलग जगहों पर बुधवार की दोपहर तेज बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार स्कूलों के छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। पहली घटना मकरी के बगही में हुई, जहां वज्रपात में मकरी के निमिया टोला निवासी छट्टु राम (60) की मौत हो गई। आनन फानन में उन्हें स्थानीय सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार वह बगही स्थित अपने खेत के पाही पर गए

हुए थे कि अचानक तेज बारिश के बीच वज्रपात में उनकी मौत हो गई। वहीं चपरी व पंडरिया के बीच पुल के समीप वज्रपात की दूसरी घटना में चार छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल छात्राओं में थाना क्षेत्र के पंडरिया निवासी सुरेंद्र मेहता की पुत्री ज्योति कुमारी (15), रमजान अंसारी की पुत्री शब्कु निशा (15), सीताराम मेहता की पुत्री रुपांजलि कुमारी (16) तथा चपरी निवासी संजय साह की पुत्री सपना कुमारी (16) शामिल हैं। चारों छात्राओं को ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आयुष चिकित्सक नितेश भारती के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सभी छात्राओं को ११ पृष्ठ 11 पर

NEWS इनट्रीफ

प्रखंड परिसर में बतख चूजा का किया गया वितरण

हुसैनाबाद। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत हुसैनाबाद प्रखंड परिसर में बुधवार को 30 ग्रामीण लाभुकों के बीच 15-15 बतख चूजा का वितरण किया गया। प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी, बीडीओ रतन कुमार, पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी शाहिद इकबाल आदि के साथ बतख चूजा का वितरण किया। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी ने कहा कि बतख पालने से गरीब लाभुकों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्षेत्र की गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मौके पर बीडीओ रतन कुमार ने कहा कि 90 एवं 75 प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बीच बतख चूजा का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर एआई टेक्नॉलॉजिस्ट रंजीत सिंह, उदय सिंह समेत कई कर्मी व लाभुक मौजूद थे।

मुखिया ने किया चबूतरा निर्माण कार्य का शिलान्यास

हरिहरगंज। प्रखंड के तृतीया पंचायत के मुखिया सह हरिहरगंज मुखिया संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने बुधवार को कर्मलेवा गांव में 15वीं वित्त योजना से चबूतरा निर्माण कार्य योजना का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोंडकर किया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुखिया श्री यादव ने कहा कि क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं का काम किया जा रहा है।

युवक की संदिग्ध मौत, हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज

हुसैनाबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी कला गांव निवासी पुष्पा देवी ने हुसैनाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर पति अजय राजेश राम (35) की संदिग्ध मौत के बाद देवरी कला गांव के ही मजहर हुसैन और चिंटू खान नामक दो लोगों के खिलाफ हुसैनाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि दिनांक 21 अगस्त को रात्रि 10.15 बजे दोनों व्यक्ति मेरे घर पर आए और देवाव बनाकर गरीब खून में बेटी को छोड़ने की बात कह रहे थे। मेरे पति जाने से मना किये। हमने कहा कि आपलोगों की नीयत अच्छी नहीं है। फिर भी बोले की चलो चढ़ा कर तुरंत आ जाते हैं। लेकिन रात भर मेरे पति घर नहीं आए, कुछ लोगों से पता चला कि अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में हैं। जब हमने लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि आपके पति ओभरबीज के उपर पड़े थे। मृतक की पत्नी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उक्त लोगों ने ही मेरे पति की हत्या की है। उधर इम्पेक्टर सह थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने कहा है कि हत्या का केस पंजीकृत कर लिया गया है। इस संदिग्ध मौत की मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए 30 अगस्त से खुलेगा पोर्टल

हरिहरगंज। पलामू जिला आईटीआई संगठन के सचिव राजीव रंजन के नेतृत्व में बुधवार को एक शिप्टमंडल जिला कल्याण पदाधिकारी सेवामा सह से मेदिनीनगर स्थित कार्यालय में मिलकर जिले भर के आईटीआई कर रहे छात्र-छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन शुरू करने की मांग की। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी श्री साहू ने शिप्टमंडल को यह आश्वासन दिया कि छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन करने के लिए 30 अगस्त से पोर्टल खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद आईटीआई छात्र-छात्राए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। मिलने वाले शिप्टमंडल में गुरुकुल आईटीआई के प्रधानाचार्य विक्की कुमार, सुमित सिंह, नेशनल आईटीआई प्रधानाचार्य राजीव रंजन, ओम आईटीआई प्रधानाचार्य धनंजय कुमार, महारणा प्रताप आईटीआई प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह, प्रेरणा आईटीआई प्रधानाचार्य, ज्योति, आईटीआई, चित्राश आईटीआई, बिरसा आईटीआई नवीन दुबे, ओम आईटीआई गढ़वा आदि शामिल थे।

पाटन प्रमुख ने धोती, साड़ी, लूंगी का किया वितरण

पाटन। पाटन प्रखंड उताकी पंचायत के गंगतुवा मे पीडीएस टुकान पर पाटन प्रमुख शोभा देवी व डीलर अनुज पाण्डेय ने वृद्ध असाहय जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को सरकार द्वारा संचालित सोना सोबरन धोती, साड़ी, लूंगी, योजना के तहत करीब 100 लोगों के बीच वितरण किया गया।

Government of Jharkhand ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT ROAD DIVISION, LATEHAR

E-PROCUREMENT NOTICE INVITING TENDER (1st Call) E-Tender Reference No.- RCD/LATEHAR/689/2023-24 DATE - 21-08-2023

Sl. No.	Name of the Work	Estimated Cost (In Rs.)	Time of Completion	Date / Time of Publication of Tender on Website	Last Date / Time of receipt of bids	Name and Address of office inviting tender	Contact No. of Procurement Officer	Help Number of e-Procurement cell
1.	Construction of RCC Slab Culvert (6m x 4m) with approach Road of Connecting Rural road at 2nd Km of Barwadhih - Hutar Road for the year 2023-24	Rs. - 80,00,000.00 (Rupees Eighty Lakh Only)	04 (Four) Months	28-08-2023 (10.30 A.M)	11-09-2023 (12.00 Noon)	O/o - Executive Engineer Road Construction Department, Road Division, Latehar	06565-245081	0651-2401010

Further details can be seen on Website <http://jsharkhandtenders.gov.in>
E-mail ID : ecrdlatehar-jhr@nic.in
Tel. No. - 06565-245081
Executive Engineer
PR 305283 Road(23-24)#D R.C.D., Road Division, Latehar

बीडीओ सह कार्यपालक अधिकारी को सौंपा 11 सूत्री ज्ञापन

कार्यपालक अधिकारी ने समाधान का दिया आश्वासन

नवीन मेल संवाददाता छतरपुर। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण नगर पंचायत छतरपुर का हाल बेहाल हो गया है। आलम यह है कि नगर पंचायत आज बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। इस बावत नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविन्द गुप्ता ने नगर के नए कार्यपालक अधिकारी सह बीडीओ को 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद अरविन्द ने कहा कि गंदगी, स्ट्रीट लाइट, नगर में ऑटो स्टैंड का निर्माण, जलसंकट के मद्देनजर पानी टंकी का निर्माण, नगर के इलाके में डस्टबिन लगाने, नगर की सफाई सुनिश्चित कराने, नगर में टाउनहाल और नगर पंचायत



के कार्यालय का निर्माण, सेहत के मद्देनजर पार्क का निर्माण, पीएम आवास के सभी लाभुकों को उनकी किस्त का भुगतान सुनिश्चित

कर आवास पूर्ण कराने, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना व युवाओं को प्रोफेशनल बनाने हेतु कौशल विकास की योजनाओं का इलाके में संचालन कराने व एनएच 98 घेरोटिया बाबा के पास की सड़क की मरम्मत कराने व इलाके में खराब पड़े जलनिर्माण को प्राथमिकता देते हुए अखिलम्ब बनवाने, महीनों से खराब पड़े नगर की हाई मास्ट लाइटों को अखिलम्ब बनवाने की मांग की गई है। अरविन्द ने बीडीओ से आग्रह किया कि वे नगरहित में समस्याओं के निदान की दिशा में पहल करें। वहीं कार्यपालक अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सभागार में

संत तुलसीदास की जयंती मनाई गई

नवीन मेल संवाददाता विश्रामपुर। रेहला बी मोड स्थित संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सभागार में महान संत तुलसीदास की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जिसका उद्घाटन प्राचार्य संतोष मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने संत तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री मिश्रा ने संत तुलसीदास के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कहा कि तुलसीदास एक महान संत के अलावा हिंदी साहित्य के आदर्श पुरोधा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज की भलाई में गुजारा। उनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथ और पुस्तकें लोगों के जीवन में कई बदलाव

लाने का वाहक बनीं। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ श्यामा मिश्रा ने कहा कि तुलसीदास ने ही स्वराज स्थापना की शुरुआत की थी। वे कई भाषाओं के महान विद्वान भी थे। संचालन एनएनएस कार्यक्रम पदाधिकारी राकेश शुक्ला ने किया। मौके पर रामजी चौबे, कृष्ण कुमार चौबे, रंजन दुबे, ज्योति कुमारी, संतोष शुक्ला, अजय ओझा, त्रिपुरारी तिवारी, आशा कुमारी, मधु ओझा, फूल कुमारी, साधना मिश्रा, संजय पांडेय, आशीष पांडेय, जितेंद्र पाठक, अमित कुमार, देव प्रकाश पांडेय, रामेश्वर राम, अर्चना कुमारी, नंदी मिश्रा, राम बिहारी, गुंजन कुमार, सुधीर कुमार यादव, पुरुषोत्तम चौबे सहित कई लोग मौजूद थे।

प्रेम प्रसंग में हिंदू लड़की को लाया घर, परिजनों ने दी पुलिस को सूचना

नवीन मेल संवाददाता पाटन। नौडीहा पंचायत के हुरुहासा निवासी चारिस अंसारी, पिता इलियास अंसारी, हिंदू लड़की को हैदराबाद से शादी के नियत से लाकर अपने घर में रह रहा था। जिसकी सूचना पाकर पाटन थाना प्रभारी गुलशन गौरव ने दोनों को थाना लाकर पुछताछ की। जिसके बाद पलामू एसपी रीशमा उमके परिजनों से पूछताछ की। पुछताछ हेतु पुलिस मुख्यालय मेदिनीनगर ले गयी। इसकी सूचना पाकर पाटन छतरपुर विधायक पाटन प्रतिनिधि संजय सिंह ने हुरुहासा ग्राम जाकर इस घटना की जायजा लिया तथा उसके परिजनों से पूछताछ की। पुछताछ के क्रम में चारिस अंसारी के भाई अफताब अंसारी ने बताया कि चारिस अंसारी चार साल से हैदराबाद में कम्पनी में काम कर रहा था। जिसके उपरांत नगर पुलिस दोनों को पुछताछ हेतु पुलिस मुख्यालय मेदिनीनगर ले गयी। पाटन विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह के साथ मौके पर प्रमोद सिंह नवलज सिंह उपस्थित थे।

समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांगता जांच शिविर आयोजित

नवीन मेल संवाददाता विश्रामपुर। रेहला बीआरसी कार्यालय परिसर में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांगता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला समावेशी शिक्षा प्रभारी राजीव चौबे, प्रखंड समावेशी शिक्षा प्रभारी श्याम सुंदर वर्मा, बीपीओ मणी पांडेय और रिसेंस शिक्षक प्रशांत कुमार चौबे उर्फ मंटू चौबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 100 दिव्यंग बच्चों ने भाग लिया। जिसमें से 22 बच्चों को



उपकरण हेतु चिन्हित किया गया। वहीं 60 बच्चों को उपकरण शिविर में ही प्रदान कर दिया गया। मौके पर बीआरपी मनोज कुमार पाठक, एमडीएम प्रभारी अजीत कुमार तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे।

सीओ व थाना प्रभारी ने कोयला ले जाते तीन ट्रक को किया जब्त

डीएमओ ने वाहन मालिक, चालक व सल्लित व्यक्तियों पर दर्ज करवाई प्राथमिकी

नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर। अंचलाधिकारी झुन्नु मिश्रा एवं थाना प्रभारी अभय सिन्हा की तत्परता से समय अवधि समाप्त होने के उपरांत कोयला ले जा रहे तीन ट्रक को प्रखंड स्तरीय खनन टास्क फोर्स के द्वारा पकड़ा गया। जांच के उपरांत अवैध पाए जाने पर ट्रक मालिक, चालक एवं सल्लित व्यक्तियों के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई एवं जांच कर सल्लित व्यक्तियों के खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गुप्त सूचना के अनुसार खनन टास्क फोर्स की टीम के द्वारा 17 अगस्त की रात्रि में वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान तीन ट्रक के द्वारा

कोयला ले जाया जा रहा था, जब जांच दल के द्वारा चालक से कागजात की मांग की गई तो उपलब्ध कागज की जांच की गई तो समय अवधि समाप्त होने के उपरांत कोयला ले जाते हुए पाया गया, जिस पर कोयला समेत ट्रक को जप्त कर लिया गया एवं इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी को दी गई। पोर्टल पर जांच की गई तो समय अवधि समाप्त होने के उपरांत कोयला ले जाते हुए पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएमओ के द्वारा ट्रक चालक, मालिक एवं सल्लित व्यक्तियों के खिलाफ शहर थाना मेदिनीनगर में प्राथमिक दर्ज करवाई गई। जानकारी के अनुसार ट्रकों पर लदा कोयला मध्य प्रदेश सिंगरोली जा रहा था।

विधायक ने

विद्यालय भवन का किया शिलान्यास

छतरपुर। अनुमंडल छेत्र के खजुरी पंचायत में स्थित अपग्रेडेड हाई स्कूल खजुरी में क्षेत्रीय भाजपा विधायक पुष्पा देवी के द्वारा बुधवार को डीएमएफटी मद की राशि से विद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। पुष्पा देवी ने बताया कि इस विद्यालय की बाउंड्री भी विधायक मद की राशि से बनायी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने छेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा सदन में आवाज उठाती रही हूँ उसी का परिणाम है कि आज छतरपुर में टी आर डब्ल्यू का रिपेयरिंग ऑफिस आपके घर में खुल रहा है जिससे आपको ट्रांसफार्मर खराब होने पर जिला जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढ़वा

आवश्यक सूचना

(नोटिस)

नाम-(1) काण्ड के प्रा0अभि0-प्राथमिकी अभियुक्त पंकज उर्फ पंकज जी उर्फ पंकज कोरवा, पे0-महेश उर्फ पटेल कोरवा, सा0-डेगुरा बरवाहा, थाना-रंका, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड। भण्डरिया थाना काण्ड सं0-45/2018, दिनांक-30.05.2018, धारा-147/148/149/341/323/342/324/379/435/427/387/504/506 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 38/19 यू0ए0पी0 एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त पंकज उर्फ पंकज जी उर्फ पंकज कोरवा, पे0-महेश उर्फ पटेल कोरवा, सा0-डेगुरा बरवाहा, थाना-रंका, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त है, जो उक्त काण्ड में फिरार है। माननीय न्यायालय, गढ़वा से फिरार है। आपको सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय, गढ़वा में अखिलम्ब आत्मसमर्पण करना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक, गढ़वा

PR 305306 Police(23-24)#D

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, लातेहार

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण-सूचना संख्या 06 / 2023-24

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹00 में)	अग्रघन की राशि (₹00 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹00 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	विद्यालय/दाला का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल लातेहार।			
2.	परिमाण विपत्र की विक्री की तिथि एवं समय	दिनांक 11.09.2023 के कार्यालय अवधि में।			
3.	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.09.2023 के 3.00 बजे अपराह्न तक।			
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.09.2023 के 3.30 बजे अपराह्न के बाद।			
5.	परिमाण विपत्र (निविदा कागजात) की विक्री का स्थान	1. मुख्य अभियन्ता(पथ) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची, अभियन्त छात्रावास संख्या-2, प्रथम तल, पूर्वा, राँची। 2. अधीक्षक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, डालटनगंज का कार्यालय। 3. कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, लातेहार का कार्यालय।			
6.	निविदा प्राप्त एवं खोलने का स्थान	क्रमांक 5 में उल्लेखित कार्यालयों में निर्धारित स्थानों पर।			
7.	कार्य की विवरणी :-				

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹00 में)	अग्रघन की राशि (₹00 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹00 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	लातेहार (एन.एच-75) हेरहेज (एस.एच-10) भावा नवादा पथ के कि०मी० 2.50 से 28.70 में कि०मी०टर पोस्ट का अधिष्ठापन एवं पुल-गुलिया के पारोपट रंगरोगन का कार्य	10,00,000.00	20,000.00	1,250.00	1 माह
2	कुटुम्भ-गारु-महुआडॉड पथ (एस.एच-09) के कि०मी० 0.00 से 80.00 तक में सड़क सुरक्षा हेतु Rumble Strip, Speed Limit, Road Furniture & Direction and place in sign board का अधिष्ठापन कार्य	25,00,000.00	50,000.00	5,000.00	2 माह
3	लातेहार-सरयू-कोटाम पथ (MDR-249) के कि०मी० 19, 27, 28, 30 से 33 तक में साधारण मरम्मत कार्य	15,00,000.00	30,000.00	2,500.00	2 माह
4	लातेहार (एन.एच-75) हेरहेज (एस.एच-10) भावा नवादा पथ के कि०मी० 2.50 से 28.70 में साधारण मरम्मत कार्य	25,00,000.00	50,000.00	5,000.00	2 माह
5	मासियातु मोड़ (NH-75) सारंग-सेरक-मासियातु-ओल्हाट - पंचकेरी (झार) (SH-10) पथ के कि०मी० 0.00 से 23.30 तक में रोड फर्नीचर एवं पेड़ों का रंग-रोगन एवं Rumble Strip कार्य	20,00,000.00	40,000.00	5,000.00	1½ माह
6	बर्वाडीह - हुटार पथ के 8वें कि०मी० में कोयल नदी पर अवस्थित पुल का Railing मरम्मत कार्य	12,00,000.00	24,000.00	2,500.00	2 माह
7	मुसारा-केचकी-बर्वाडीह पथ (MDR-141) के 10वें कि०मी० में 200 मीटर में आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य	20,00,000.00	40,000.00	5,000.00	2 माह
8	लातेहार-सरयू-कोटाम पथ (MDR-249) के 4वें कि०मी० 650 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण कार्य	50,00,000.00	1,00,000.00	5,000.00	3 माह
9	महुआडॉड - नेतरहाट पथ (एस.एच-09) के 1वें (बिरसा चौक) में 75 मीटर में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	8,00,000.00	16,000.00	1,250.00	1 माह
10	लातेहार-सरयू-कोटाम पथ (MDR-249) के 22वें कि०मी० (सरयू नाला के पास 2.00 मीटर उंचाई) 150 मीटर लम्बाई में रिटैनिंग वाल का निर्माण कार्य	45,00,000.00	90,000.00	5,000.00	3 माह
11	महुआडॉड - पुराम - महुआडॉड - चम्पा पथ के पाटी शेड में कि०मी० 5वें एवं 6वें में 2.50 मीटर उंचाई एवं 120 मीटर लम्बाई में Retaining Wall का निर्माण कार्य	40,00,000.00	80,000.00	5,000.00	3 माह
12	कुटुम्भ-गारु-महुआडॉड पथ (एस.एच-09) के कि०मी० 38.00 से 68.00 तक में अवस्थित पुराने एवं जर्जर गार्डरैल की मरम्मत एवं झाड़ी सफाई कार्य	50,00,000.00	1,00,000.00	5,000.00	3 माह
13	प्रमंडलीय कार्यालय का सुसज्जीकरण कार्य	10,00,000.00	20,000.00	1,250.00	2 माह
14	निरीक्षण भवन चन्ददा का मरम्मत/करवाये कार्य सुसज्जीकरण कार्य	10,00,000.00	20,000.00	1,250.00	2 माह
15	चन्ददा में अवस्थित सहायक अभियंता का आवास में मरम्मत का कार्य	10,00,000.00	20,000.00	1,250.00	2 माह

नोट:- 1)निविदा आमंत्रण सूचना www.prdjharkhand.gov.in एवं निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।
2) कार्य की प्राक्कलित राशि घटने-बढ़ने की स्थिति में, उसी के अनुरूप अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य लिया जायेगा।
3) निर्धारित निविदा तिथि को सरकार द्वारा अवकाश घोषित होने पर निविदा आमंत्रण की तिथि अगले कार्य दिवस को होगी।

कार्यपालक अभियन्ता
प0नि0वि0 पथ प्रमण्डल लातेहार
PR305282 (Road)23-24#D

कार्यालय नगर पंचायत छतरपुर (पलामू)।

अति-अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-NPC-NIT-12/2023-24

- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता -कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, छतरपुर(पलामू)।
- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - दिनांक-24.08.2023
- ई-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय - दिनांक-24.08.2023 एवं 05.00 बजे अपराह्न से।
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - दिनांक-04.09.2023 एवं समय: 5.00 बजे अपराह्न तक।
- वेबसाइट पर अपलोड किये गये दस्तावेज की मूल प्रति जमा करने का स्थान, तिथि एवं समय - कार्यालय नगर पंचायत, छतरपुर/दिनांक: 05.09.2023/समय: 1.00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समय - कार्यालय, नगर पंचायत, छतरपुर के कार्यालय वेरम, छतरपुर /05.09.2023/02.00 बजे अपराह्न।
- निविदा प्रकोष्ठ का मोबाईल संख्या - 9608834366 एवं 7779992012
- कार्य मद - 15वें वित्त आयोग।

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (₹00 में)	निविदा शुल्क (₹00 में)	अग्रघन की राशि (₹00 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
5	Construction of RCC DRAINAGE from NH98 Hesla Road to pani Tanki in ward No. 11	17,48,637.00	10,000.00	35,000.00	30 Days

नियम एवं शर्तें:-

- केवल ई-निविदा ही स्वीकार की जाएगी।
- संवेदक द्वारा ई-निविदा में अपलोड किया गया सभी दस्तावेज तथा संवेदक का निबंधन प्रमाण-पत्र, UCAN, आयकर रिटर्न (विगत तीन वर्षों का), जी0एस0टी0 रिटर्न (विगत तीन माह का), निबंधन प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 स्वच्छता प्रमाण-पत्र, PAN कार्ड, आधारकार्ड, चरित्र प्रमाण-पत्र, अग्रघन की राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क, राशय-पत्र की मूलप्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेज दिनांक-05.09.2023 को अपराह्न 01:00 बजे तक नगर पंचायत, कार्यालय, छतरपुर में जमा करना अनिवार्य है।
- निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, छतरपुर" के पक्ष में, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक छतरपुर, शाखा में भुगतान होगा, जो कि लौटायान नहीं जायेगा।
- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची में समुचित श्रेणी में निर्बंधित संवेदकों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
- निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारियाँ udhd.jharkhand.gov.in या <http://jharkhandtenders.gov.in> या www.palamu.nic.in पर एवं नगर पंचायत, छतरपुर कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वहन से 05:00 बजे अपराह्न तक देखा जा सकता है।
PR 305353 (District) 23-24 (D)

कार्यालय:- जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी, चतरा

(आवेदन-पत्र आमंत्रण सूचना)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) झारखण्ड, राँची के राज्यदेश सं० 16 रा० (वि०) दिनांक 24.07.2023 (मत्स्य प्रभाग, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना) के आलोक में विभिन्न योजनाओं हेतु सुयोग्य आवेदकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	मौलिक मूल्य (₹00 में)	ईकाई लागत (₹00 में)	अनुदान की राशि (₹00 में)	लाभुक का अंशदान (₹00 में)	अहताएँ
1	मिजो क्षेत्र में महाडीगा पालन	02 एकड़	160000.00 (प्रति एकड़)	128000.00 तथा सामान्य/अन्य के लिए 112000.00	महिला/अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए 32000.00 तथा सामान्य/अन्य के लिए 48000.00	महिला/अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए 32000.00 तथा सामान्य/अन्य के लिए 48000.00
2	मोबाईल रिचार्ज	342	500	500	0	आवेदक के पास कम से कम 0.50 एकड़ अधिकतम 1 एकड़ जलक्षेत्र का सदाबहार तालाब हो, पर के नजदीक वाले तालाब को प्राथमिकता दी जायेगी।
3	मत्स्य मित्र/मत्स्य पालक/केज मित्र/केज मत्स्य पालक को पुरस्कार सम्मान	02	-	30000.00	-	मत्स्य बीज उत्पादक जो कार्यालय से मत्स्य स्थान प्राप्त किये हे उन्हें मोबाईल रिचार्ज करने के उपरांत म० 500 रुपये अनुदान, बिल कार्यालय में जमा करने के उपरांत भुगतान किया जायेगा। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ पर आधारित है।
4	जलाशय स्तरीय मछुआपट्टी के					

NEWS इनट्रीफ

भ्रष्ट पदाधिकारी तीन माह का राशन गटक गये : रुचिर



मेदिनीनगर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव का राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी ने नावाडीह के आदिम जनजाति के लोगों के शिकायत के बाद बंद पड़े आदिम जनजातियों को मिलने वाला राशन के खिलाफ खाद आपूर्ति कार्यालय में शिकायत की। मौके पर आदिम जनजाति परिवार की दर्जनों महिलाएं उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि आज 3 माह से हम लोगों का राशन मिलना बंद है। भाकपा जिला सचिव ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का भी 3 महीना से राशन नहीं मिलना, सरकारी पदाधिकारी, अफसरों एवं बिचौलिया के मिली भगत बताया है। वहीं इसी इलाके में आदिम जनजाति के लोगों से बिरसा आवास देने के नाम पर पांच-पांच हजार रुपए चुस मांगा जा रहा है, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी बताया जा रहा है। जिला सचिव श्री तिवारी दर्जनों महिलाओं के साथ खाद आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। जहां खाद आपूर्ति पदाधिकारी उपलब्ध नहीं थे। संबंधित पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि अलिखित स्पष्ट कार्रवाई करके राशन वितरण नहीं हुआ तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं राशन कार्ड धारी के दूसरे लाभूको का यह भी आरोप है कि अगस्त महीना का राशन हम लोगों को नहीं मिला, जो सोचनीय है। रुचिर ने पलामू उपयुक्त से इस बाबत स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए स्कूली बच्चों ने की प्रार्थना

नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। नावाटोली स्थित लिलिपुट प्ले स्कूल में दिन बुधवार को 'इसरो' द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए 'चंद्रयान 3' की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए सभी छोटे बच्चों ने प्रार्थना की। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इसे 14 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। स्कूल की हेड ऑफ टीचर रश्मि हिम्मतरामका ने बच्चों को चंद्रयान क्राफ्ट एवं चंद्रमा की तस्वीरों द्वारा चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस तरह के मिशन को सम्पूर्ण करवाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की सातों की मेहनत लगी है। अभी कुछ दिनों पहले ही रशिया द्वारा भेजा गया लूना चंद्रयान चंद्रमा पर उतरने के कुछ देर पहले ही क्रैश हो गया था। उन्होंने बताया



आज शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर उतरना है जिसके लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर जारी है। स्कूल की प्राचार्य रेणु गौयल ने कहा कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं इसलिए भगवान निश्चय ही उनकी प्रार्थना सुनेंगे और यह मिशन पूरा होगा।

एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण का लिया जायजा

नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के निदेशानुसार सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। मौके पर उपस्थित एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बाजार में सड़क पर दुकान लगाने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले बार से सड़क पर दुकान सही ढंग से नहीं लगायी गयी तो दुकानदारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक प्रभारी रामजीत सिंह को आदेश दिया कि बाजार में जितने भी बेतरतीब तरीके से वाहन लगाए जाते हैं उन्हें जप्त कर थाना भेजें। इस अभियान से बाजार के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले की सड़क पर दुकान लगाने की वजह से राहगीरों को राह चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके वजह से पलामू पुलिस अब लगातार बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाएगी। बुधवार से ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा बाजार क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा।



'पंडित रामदीन पाण्डेय व उनकी सारस्वत साधना' पुस्तक का भव्य लोकार्पण

समाज को जगाने वाली हैं पंडित रामदीन पाण्डेय की कृतियां: कुलपति

कुलपति ने 'पंडित रामदीन पाण्डेय पीठ' के स्थापना की घोषणा की

नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। पंडित रामदीन पाण्डेय शोध संस्थान एवं गीता प्रचार समिति के संयुक्त तत्वावधान में सदर मेदिनीनगर स्थित होटल ग्रैंड जयश्री में गोस्वामी तुलसीदास एवं पंडित रामदीन पाण्डेय की जयंती मनाई गयी तथा 'पंडित रामदीन पाण्डेय और उनकी सारस्वत साधना' का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉ.तपन कुमार शांडिल्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सह प्रभारी कुलपति नोलावर-पीतावर मेदिनीनगर, डॉ जगबहादुर पाण्डेय पूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी रांची विश्वविद्यालय, रांची प्रोफेसर के.के. मिश्रा, प्रोफेसर सुभाष चन्द्र मिश्रा, ज्ञानचंद पाण्डेय, नवल तुलस्यान, बलराम तिवारी, रवि शंकर पाण्डेय, शिवनाथ अग्रवाल, अखिलेश प्रसाद, कैलाश उरांव व कृष्णकांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पुस्तक का संपादन साहित्यकार श्रीधर द्विवेदी एवं धर्मगुरु-सह-लेखक डॉ



सत्यकेतु संजय ने संयुक्त रूप से किया है। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर सुभाषचन्द्र मिश्रा व संचालन डॉ अनिरुध्म संजय ने किया। विषय प्रवेश कराते हुए श्रीधर द्विवेदी ने कहा कि यह पुस्तक पंडित रामदीन पाण्डेय को समझने में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें पढ़ने की भूख बढ़ेगी। वहीं डॉ

सत्यकेतु संजय ने पंडित रामदीन पाण्डेय के जीवनवृत्त से सभा को सुंदर तरीके से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कुलपति तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि पंडित रामदीन पाण्डेय ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया। एक तरफ उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की

प्रचुरता है तो दूसरी ओर उनमें जन सामान्य के जीवन को छूने की बेचैनी भी है। उनके व्यक्तित्व व कृतियों में संवेदना एवं हास्यबोध की प्रमुखता है। उन्होंने संपादक द्वय को पुस्तक प्रकाशन के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने 'पंडित रामदीन पाण्डेय पीठ' की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने

तुलसीदास की रचनाओं को मानव विज्ञान बताकर उन्हें नमन किया। वहीं जगबहादुर पाण्डेय ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जन-जन के रंग-रंग में बसे हैं और उनकी कृतियां समस्त वसुधा के कल्याण व जागृति के लिए हैं। उन्होंने पंडित रामदीन पाण्डेय के विराट व्यक्तित्व को नमन करते हुए कहा कि उनकी सभी कृतियों का पुनर्प्रकाशन होना चाहिए। वास्तव भी उनकी विद्वता हमें विस्मित करती है। इस मौके पर समाजसेवी ज्ञानचंद पाण्डेय, अधिवक्ता बलराम तिवारी, शिवनाथ अग्रवाल व शिक्षक परशुराम तिवारी ने रामदीन पाण्डेय के समस्त कृतियों के प्रकाशन पर बल दिया। मौके पर साहित्यकार डॉ विजय प्रसाद शुक्ल, हरिवंश प्रभात, रमेश सिंह, राकेश कुमार, अनुज पाठक, सत्यनारायण तिवारी, रामप्रवेश पंडित, गणेश पाण्डेय, अशोक तिवारी, भीम प्रसाद, चिनीता तिवारी, नमिता पाण्डेय, रतन पाण्डेय, आशीष भारद्वाज, वररूचि राकेश, ओमकारनाथ अग्निमित्र व विकास (बंटी) पाण्डेय सहित काफी संख्या में सुधीजन व साहित्य प्रेमी मौजूद थे।

ट्रक व टैपो टक्कर में चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल



मेदिनीनगर। सतबरवा थाना क्षेत्र के ट्रेनिंग स्कूल के पास ट्रक और टैपो के टक्कर में चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दो की मौत हो गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही सतबरवा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के बाद भी घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल जब सदर अस्पताल पहुंचे तो सदर अस्पताल के बाहर सिर्फ एक ट्राली थी। घायलों को अस्पताल के अंदर ले जाने में सतबरवा थाना के पुलिस कर्मियों का अहम सहयोग रहा है।

डीसी ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए चिन्हित भूमि व कार्यों की समीक्षा की



नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। उपयुक्त शशि रंजन ने बुधवार को पलामू जिला अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए चिन्हित की गयी जंगल-झाड़ी भूमि को सैद्धांतिक रूप से निर्गत अनापत्ति से संबंधित बैठक की। बैठक में उपयुक्त विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारियों से योजनाओं के स्टेटस से अवगत हुए। उन्होंने एक-एक कर सभी अधिकारियों से जांच-पड़ताल प्रारंभ हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कार्य कहां तक पहुंचा है, अगर कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ आदि बिंदुओं पर जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर शुरू हुई सभी योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। उपयुक्त ने वन

विभाग से जुड़े मामले, एनओसी, एफआरए, जीएम लैंड समेत अन्य मामलों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से मामलों की समीक्षा कर जल्द उन मामलों का निगटारा करने का निर्देश दिया। वहीं सभी निमाणाधीन कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने जिले में संचालित सभी मेगा प्रोजेक्ट को लेकर अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं से भी डीसी को अवगत कराया। मौके पर अपर समाहता सुरजीत कुमार सिंह, सहायक समाहता रवि कुमार, डीटीओ अनवर हुसैन समेत विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

20 सूत्री कार्यालय में कृषि विभाग आवंटित बीजों का निःशुल्क वितरण किसी भी देश की असली ताकत उसके किसान व जवान होते हैं : पाठक

नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। सदर प्रखंड मेदिनीनगर के 20 सूत्री उपाध्यक्ष सह पलामू काग्रेस के महासचिव रामानंद पाठक ने बुधवार को 20 सूत्री कार्यालय में सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों से आए हुए किसानों के बीच कृषि विभाग द्वारा आवंटित बीजों का निःशुल्क वितरण किया। उन्होंने कहा कि किसान को धरती पुत्र भी कहा जाता है, अमीर हो या गरीब, राजा हो या उद्योगपति सभी का जीवन किसान की मेहनत पर आश्रित है। किसान दिन-रात गर्मी, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना अपने खेतों में अपने श्रम से फसलें उगाता है और वही अनाज पूरे देश के लोगों की भूख को शांत करता है। भारत में जिस तरह की फसलें बोई जाती है उनके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन खरीफ में अनियमित बारिश की समस्या हो या रबी फसलों के लिए पानी की कमी की समस्या हो, किसानों को हर वक्त पानी की कमी को सहना पड़ता है। आज के दौर में जहां जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, भूजल



में योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी है, अगर जागरूकता हो भी तो सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार और कागजी इंडस्ट्री का सामना करना पड़ता है। समस्या गंभीर है पर जैसे जैसे किसान शिक्षित होते जाएंगे और सरकारी संस्थाओं का डिजिटलाइजेशन होगा इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में बहुत

बदलाव आया है। अब खेती में अत्याधुनिक मशीनों से काम लिया जाने लगा है। मगर यह अनुपात बहुत कम है। आज भी ऐसे स्थानों पर जो बहुत दूर हैं, वहाँ के किसानों की स्थिति पहले के समान ही है। प्रकृति की मार उनकी मेहनत को नष्ट कर रही है। कर्ज के बोझ तले दबकर वे आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। आज भी उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। सभी सुख-सुविधाओं से विहीन किसान विपन्नता का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उपस्थित सभी किसानों ने 20 सूत्री उपाध्यक्ष को आभार व्यक्त किया कि उनके अथक प्रयासों से झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क बीज उन लोगों तक पहुंचा। मौके पर बी टी एम सह प्रखंड कृषि प्रभारी सुमीत वर्मा, किसान देव कुमार सिंह तन्मय राज पांडे मनीष यादव शाहबाज अंसारी ममता देवी गिरवर प्रसाद सिंह देवती देवी प्रमिला कुंवर राजमोहन सिंह वैजयंती देवी पुष्पांजलि कुमारी शोभा देवी आदि किसान उपस्थित थे।

चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भाजपा ने दी शुभकामनाएं



नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। भारतीय जनता पार्टी पलामू के जिला अध्यक्ष विजय नंद पाठक ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देश के समस्त वैज्ञानिकों और आदरणीय प्रधानमंत्री को अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश हर एक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उसी का एक हिस्सा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी है। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से एक साथ 104 सेटलाइट छोड़े, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। चंद्रयान- 3 की सफलता ने पूरी दुनिया के सामने भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाया है। जिला अध्यक्ष ने दोहा के माध्यम से कहा कि 'सेवा सम्मान और संस्कार से दिल सबका जितना है, कठिन परिश्रम करके हमें इतिहास नया लिखना है, भारत मां के उज्ज्वल भविष्य का ध्यान सदा रखना है, देश हित में नीति बनाकर सभी कार्य को करना है।' पूरी जानकारी प्रेस विज्ञापित जारी करके जिला मीडिया सह प्रभारी नवेंदु मिश्र ने दी।

सड़क दुर्घटना में स्कूल बस ड्राइवर की मौत



नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। नावाबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम रजदरिया मलाह टोला निवासी जीतू पासवान उम्र 65 वर्ष स्कूल बस ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जीतू पासवान गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में बस

का ड्राइवर थे और वह हाल में पांकी थाना क्षेत्र के ग्राम तेतराई किसी के घर में किराये के मकान में रहते थे। बीती रात मकान में अत्यधिक गर्मी के कारण वह घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी बीच तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार युवक ने उन्हें बाइक से

धक्का मार दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के बाद पुलिस के द्वारा इस घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचकर अपने देखरेख में पोस्टमार्टम करवाकर शव को दाह संस्कार के लिए अपने घर ले गए। वहीं तुकबेरा मुखिया और सौहार्द खुर्द पंचायत की मुखिया कमला देवी भी मृतक के परिजनों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे थे। इस घटना के बाद से पुलिस घटना से संबंधित मामले की छानबीन में जुट गई है।

कार्रवाई थाना प्रभारी ने गिरफ्तार एनडीपीएस एक्ट के वारंटी को छोड़ा पांकी थाना प्रभारी को एस.पी. ने किया निलंबित

पूरे मामले में वरीय अधिकारियों ने पांकी और पिपराटांड थाना से जानकारी मांगी

नवीन मेल संवाददाता
मेदिनीनगर। पलामू जिले के पांकी थाना प्रभारी रंजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पांकी थाना प्रभारी पर एक गिरफ्तार वारंटी को पकड़ कर छोड़ने का आरोप है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी रिश्मा रमेशन ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। दरसअल, पलामू के नावाबाजार थाना में एनडीपीएस की धाराओं में पिपराटांड के रहने वाले बिट्टू पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। एफआईआर के बाद से आरोपी कई महीनों से फरार था। नावाबाजार थाना की पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ



कोर्ट से वारंट भी लिया था। इस वारंट की जानकारी पांकी थाना की पुलिस को भी मिली

थी। पांकी थाना प्रभारी रंजीत कुमार पर आरोप है कि वारंटी को उन्होंने पकड़ लिया था। इस

दौरान वारंटी का वाहन भी पकड़ा गया था। वारंटी पकड़कर थाना लाया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में वरीय अधिकारियों ने पांकी और पिपराटांड थाना से जानकारी मांगी। वरीय अधिकारियों ने जांच में पाया कि वारंटी को पकड़ कर छोड़ा गया है। पुलिस के पास जानकारी थी कि वारंटी गंभीर धाराओं में फरार है। इसके बावजूद उसे छोड़ा गया है। जांच के बाद पांकी थाना प्रभारी रंजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में थाना प्रभारी रंजीत कुमार का मुख्यालय पुलिस लाइन बनाया गया है। रंजीत कुमार 2018 बैच के सब इंसपेक्टर हैं और पांकी थाना में वह पिछले एक वर्ष से तैनात थे। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, आगे की जांच जारी है।

जिले में डॉक्टरों व चिकित्सा व्यवस्था का अभाव 45 दिन में 93 मरीज रेफर

नवीन मेल संवाददाता। गढ़वा जिले के मरीजों को ठीक करने वाला अस्पताल खुद बीमार है। जिले में चिकित्सकों के कमी का दर्श पूरे जिले के लोग भुगत रहे हैं। हालात ये हैं कि जिले में एक चिकित्सक के भरोसे 30 हजार आबादी है। जिले में 915 गांव हैं जिसकी कुल जनसंख्या 15 लाख 22 हजार के करीब है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 14 लाख 79 हजार है। वहीं शहरी क्षेत्र की आबादी 55 हजार के करीब है। जिले में चिकित्सकों की भारी कमी है। वहीं चिकित्सा व्यवस्था पर भी सिर्फ छोटी-मोटी बीमारियों का ही जिला अस्पताल में इलाज होता है। अगर आप गंभीर बीमारी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित हैं तो रेफरल अस्पताल से तो रेफर होकर आप सदर अस्पताल आएं ही लेकिन यहाँ भी आपको समुचित इलाज नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी बहुत सुई और दवाई देकर तत्काल सदर अस्पताल से रेफर कर दिए जाएंगे। पिछले 45 दिन में अब तक 93 मरीज ऐसे हैं, जिन्हें अस्पताल में तो बहुत उम्मीद लगा कर आए होंगे लेकिन उन्हें हल्की फुल्की दवाई देकर रेफर कर दिया जाता है।



15.22 लाख आबादी झोलाछाप के भरोसे

182 स्वीकृत पद में सिर्फ 38 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिले रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सक के मामले में स्वास्थ्य विभाग बेहाल है। पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर करोड़ की भवन खड़ी कर दी गई है। उक्त भवन के रंग हटते ही और पुनः करोड़ों रुपये की लागत से मरम्मत हो गई। कुल मिला ले तो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जिले में तो बहुत उम्मीद लगा कर आए होंगे लेकिन उन्हें हल्की फुल्की दवाई देकर रेफर कर दिया जाता है।

और रंका को रेफर अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है। वहीं पंचायत स्तर पर लाखों रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उपस्वास्थ्य के भवन बने हुए हैं। पर उक्त भवनों का हाल बेहाल है। मंगलवार को एक मामला सड़क दुर्घटना का आया जिसे सदर अस्पताल में टांका देने के बाद हल्की फुल्की दवाइयाँ देकर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। घटना में घायल गढ़वा थाना क्षेत्र के अनन्ना नावाडीह गांव के पास एक युवक अपने घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था। उसी बीच रंका की ओर से आ रहा एक

अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे धक्का मारते हुए फरार हो गया। उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिये परिजन उम्मीद लगाकर सदर अस्पताल पहुंचे। लेकिन यहाँ से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था बताते हुए मरीज को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया।

जिले में चिकित्सा कर्मियों की कमी है : सिविल सर्जन

जिले में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। कमी को दूर करने के लिए हमेशा विभाग को लिखा जा रहा है। कुछ ऐसे गंभीर दुर्घटना व बीमारी के मरीजों आते हैं। उनके लिए सदर अस्पताल में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा अब बहुत कम मरीजों को रेफर किया जाता है। कुछ कुछ व्यवस्था सदर अस्पताल में सुधार किया गया है।

मामला डंडई गांव का, कार्य धरातल पर उतरा नहीं और राशि का भुगतान हो गया

15वें वित्त आयोग की योजना में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया

नवीन मेल संवाददाता। डंडई प्रखंड के डंडई पंचायत में 15वें वित्त आयोग की योजना में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है। कार्य धरातल पर उतरा भी नहीं और उसके नाम पर 5000 रुपये की राशि की निकासी कर ली गई। पंचायत की पूर्व मुखिया फूलवंती देवी और पंचायत के तात्कालिक पंचायत सचिव सुनील कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का भुगतान किया गया है।



मामला पंचायत के डंडई गांव के दक्षिण हरिजन टोला निवासी रामस्वरूप राम के खेत में कलवर्ट निर्माण से जुड़ा है। रामस्वरूप राम के खेत में क्लिम पाइप आधारित नया किसी भी तरह का कलवर्ट का निर्माण नहीं हुआ है और उसके नाम पर राशि की फर्जी निकासी कर ली गई। वहाँ पूर्व पानी बहाव को लेकर जो क्लिम पाइप खेत में लगाया गया था वह आज भी उक्त स्थल पर स्थापित है। उसी पाइप के सहारे सड़क और पास पड़ोस के न्यारियों के पानी का बहाव होते रहता है। उसकी जगह

पर आज तक कोई और दूसरा क्लिम पाइप के साथ कलवर्ट का निर्माण नहीं हुआ है। उक्त पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के द्वारा लाभुक राहुल कुमार के खाते में पीएफएमएस सं. 20214990 के तहत 2 फरवरी 2022 को राशि का भुगतान किया गया है। बताया जाता है कि बिना कार्य के लाभुक के खाते में सरकार की एक ही रुपये की राशि का भुगतान नहीं हो सकता है। बावजूद उक्त लोगों के द्वारा लाभुक के खाते में बिना काम कराए ही राशि का भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब हो कि योजना के नाम पर डेढ़ वर्ष पूर्व

भुगतान हुए राशि के आलोक में आखिर क्यों नहीं अब तक कार्य योजना को धरातल पर उतर गया। पास पड़ोस के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली है कि उक्त रास्ते में कलवर्ट निर्माण योजना का एकरारनामा भी हुआ है। उन्होंने बताया कि कलवर्ट के अभाव में ही उक्त सड़क का अभी तक ना तो पीसीसी करण हो पाया है और ना ही मिट्टी मोरम का ही कार्य कराया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को आने-जाने के लिए उक्त सड़क बहुत ही

उपयुक्त है। बरसात के दिनों में उक्त रास्ते हम लोगों को आन जान करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसी लिहाज से हम सभी आपस में चंदा इकट्ठा कर रामस्वरूप राम के खेत में एक टूटा फूटा पाइप लगा दिए हैं जिससे कि खेत और सड़क का पानी निकलते रहता है। वहीं उसके ऊपर से हम सभी आन जान करते रहते हैं। मामले में डीपीआरओ दिनेश प्रसाद सुरिन ने बताया कि किसी भी योजना में फर्जीवाड़ा करना एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान

नवीन मेल संवाददाता। गढ़वा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्थानीय जीएन कॉन्वेंट स्कूल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रथम चरण गढ़वा जिला स्वास्थ्य संस्था के कुमार संजीव शरण (मनो चिकित्सक) एवं राजकुमार वर्मा (सलाहकार) के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बड़-चढ़ कर भाग लिया। बच्चों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन, छात्र-छात्राओं ने बड़-चढ़ कर लिया भाग



उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर और सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट चित्र बाल स्वास्थ्य चेतनावनी प्रदर्शित करने को जरूरी बनाकर तंबाकू उत्पादों की खपत, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, खाद्य व मानक

अधिनियम, 2006 के तहत गुटखा जैसे तंबाकू अथवा निकोटिन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण को निषिद्ध किया गया है। तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कैंसर जैसे असाध्य रोगों से अकाल मृत्यु हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार तंबाकू का सेवन करने के कारण हृदयाघात 78 प्रतिशत, इस्केमिक हृदय रोग



85.2 प्रतिशत, तपेदिक 65.6 प्रतिशत, गंभीर मायोकार्डियल इन्फेक्शन 52 प्रतिशत, इसोफेजियल कैंसर 437, मुंह का कैंसर 38 प्रतिशत तथा फेफड़ों का कैंसर 16 प्रतिशत का रोग जोखिम है। छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक मदन केशरी ने कहा कि तंबाकू सेवन को छोड़ना पूरी तरह से संभव है। समुचित परामर्श और

सामाजिक सहयोग और मजबूत इच्छाशक्ति क इसमें प्रमुख भूमिका है। तंबाकू सेवन को छोड़ने में सामाजिक आर्थिक लाभ के साथ-साथ निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ है। शरीर, घर और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस अवसर पर बच्चों के बीच राष्ट्रीय तंबाकू जागरूकता अभियान आधारित विबज प्रतियोगिता का आयोजित किया गया जिसमें अमृतेश राज

पांडेय को प्रथम स्थान (शब्द कोष) दिव्या दीप सोनी दशम (द्वितीय स्थान (स्कूल बैग) आकाश कुमार पांडेय दशम को तृतीय स्थान (शब्द कोष लघु) प्रदान किया गया। शेष सभी छात्र छात्राओं को सान्त्वना पुरस्कार के रूप में एक एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक संतोष प्रसाद, संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को विद्यार्थियों ने की प्रार्थना



नवीन मेल संवाददाता। मेराल मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर बुधवार को मेराल के एस डी मेमोरियल एकेडमी में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सामूहिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा चंद्रयान 3 का मॉडल भी बनाकर प्रदर्शित किया गया। सभी छात्र-छात्राओं को बुधवार के शाम 5:30 बजे से

चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग को लेकर टी वी प्रसारण को देखने के लिए प्रेरित किया गया। प्रार्थना सभा में छात्र-छात्राओं के साथ विद्यालय के निदेशक ब्रजेश कुमार मिश्र, अमरेंद्र कुमार मिश्रा, श्याम देव पांडे, गौतम कुमार, मृत्युंजय पांडे, जयप्रकाश पांडेय तृप्ति टोप्यो, एनिमा कुजूर, नसरीन खातून, उपासना कुमारी आदि शामिल थे।

उमवि में बाल संसद का गठन, पारुल बनी प्रधानमंत्री

नवील मेल संवाददाता। खरौंधी उच्चमिड मध्य विद्यालय मड़िगावा में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच एक आम सभा का आयोजन कर विद्यालय स्तर पर बाल संसद का गठन किया गया। बाल संसद के गठन को लेकर आयोजित आमसभा की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक कामेश्वर प्रसाद सिंह ने की। बाल संसद के गठन के पूर्व शिक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बच्चों के बीच विस्तार से बाल संसद के कार्यों एवं गठन की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके बाद छात्रों को लोकतंत्र के महत्व को समझाने और विद्यालय प्रबंधन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए बाल संसद का गठन प्रत्यक्ष मतदान से कराया गया। स्कूल की



साफ-सफाई, ससमय प्रार्थना सभा का आयोजन, सुचारु व नियमित ढंग से मध्याह्न भोजन का संचालन, खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए छात्राओं को छह समूह में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में दो-दो प्रतिनिधि चुने गए। मॉडर्न डल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया।

बाल संसद के प्रधानमंत्री के रूप में वर्ग सात की पारुल सिंह, उप प्रधानमंत्री के रूप में वर्ग सात की श्रीकांत गुप्ता, शिक्षा मंत्री के रूप में वर्ग आठ का राजा सिंह, उप शिक्षा मंत्री के रूप में वर्ग आठ की लक्ष्मी रानी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री के रूप में वर्ग छह से उज्ज्वल कुमार रजक, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री के रूप में वर्ग सात की फिजा रानी, जल एवं कृषि मंत्री

के रूप में वर्ग आठ का अंकित कुमार, उप जल एवं कृषि मंत्री के रूप में वर्ग आठ की नूरजहां खातून पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री के रूप में वर्ग आठ से रोहित कुमार चौरसिया, उप पुस्तकालय व विज्ञान मंत्री के रूप में वर्ग आठ की खुशबू कुमारी, बाल सुरक्षा मंत्री के रूप में वर्ग सात की अंजली कुमारी, संस्कृति एवं खेल मंत्री के रूप में वर्ग सात की नीतू कुमारी, उप संस्कृति और खेल मंत्री के रूप में वर्ग आठ की पुष्पा कुमारी को चुनाव किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक राजीव कुमार, इंद्रमण प्रसाद यादव, राजेंद्र सिंह, मंजूषा गुप्ता, मुनेश्वर राम, अरविंद राम विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में विद्यालय की छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

धर्म-कर्म मानव योनि का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए : जीयर स्वामी

‘किसी को भी किसी जीव को मारकर खाने का अधिकार नहीं’

नवीन मेल संवाददाता। श्री बंशीधर नगर जीयर स्वामी महाराज ने प्रवचन करते हुए कहा कि इंद्रियों का भोग तो जानवर भी भोग लेते हैं। यह सभी जीवों में व्याप्त है लेकिन 84 लाख योनि के बाद मानव योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य की इच्छा परमात्मा प्राप्ति की होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तो 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि में इंसान जन्म लेता है। अगर वह भी भोग विलास में डूबर-उधर गंवा दे तो यह दुर्भाग्य है। मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए और इसको पाने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। जिसका दो मुख्य मार्ग हैं, संत का समागम तथा

ईश्वर का भजन। अगर आप मार्ग से भटक गए हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो संत का समागम कीजिए, संत का दर्शन कीजिए, संत का प्रवचन सुनिए, धीरे-धीरे मन भटका हुआ मार्ग छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लगातार ईश्वर की भक्ति शुरू कर दीजिए धीरे-धीरे भटका हुआ मन भी ईश्वर के मार्ग में चलना शुरू कर देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मानव योनि में कर्म के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। हम मानते हैं कि अच्छा कर्म ज्यादा नहीं हो पा रहा है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि बुरा कर्म न हो पाए। सतर्कता इसी बात की रखनी चाहिए



कि हमसे कोई गलत कार्य न हो जाए। किसी अन्य जीवों को कष्ट न हो जाए। किसी को भी किसी जीव को मारकर खाने का अधिकार नहीं है। अपने जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार कर खाना यह बहुत बड़ा महा पाप है। क्योंकि मनुष्य भी सभी योनियों से होकर गुजरा है। अतः मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए अच्छे-अच्छे कर्म करने चाहिए पेड़ पौधा लगाया जाए और सबसे पहला चीज है कि आसपास के वातावरण और आसपास के जगह को स्वच्छ रखना चाहिए। जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए की गंगा गीता गौ तथा गायत्री की पूजा करें। जिनके घर में इन सभी की पूजा होती है उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं हो पाता है और उनके पूरे परिवार पर नारायण की कृपा बनी रहती है। कामना उत्पन्न होती ही मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और नासवान संसार के समुद्र हो जाता है। किसी को भी

नाही इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराशा ही होना चाहिए। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र तथा समर्थ नहीं है। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती है हम ईश्वर के करीब जाते हैं। और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती है तो साधुता लुप्त होती है और हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। जितना हो सके उतना जीवन में संसाधन का कम उपयोग करना चाहिए और सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कामना मात्र से कोई पदार्थ नहीं मिलता अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता ऐसी बात प्रकथ्य होने पर भी पदार्थ की कामना रखना भूल है।

नाही इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराशा ही होना चाहिए। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र तथा समर्थ नहीं है। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती है हम ईश्वर के करीब जाते हैं। और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती है तो साधुता लुप्त होती है और हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। जितना हो सके उतना जीवन में संसाधन का कम उपयोग करना चाहिए और सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कामना मात्र से कोई पदार्थ नहीं मिलता अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता ऐसी बात प्रकथ्य होने पर भी पदार्थ की कामना रखना भूल है।

संक्षिप्त

महासभा ने मनायी डॉ. रामदयाल मुंडा जयंती



चिनिया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्रखंड इकाई चिनिया के द्वारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मनाया गई। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह खरवार ने की। मौके पर खरवार ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा भारत के दलित और आदिवासी समाज की आवाज थे। 1980 के दशक में डॉक्टर मुंडा को कमेटी आन झारखंड मैट्टर का प्रमुख सदस्य बनाया गया। देश-विदेश में हुए कई कार्यक्रमों में उन्होंने झारखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाया। उनकी कई संगीत रचनाएं लोकप्रिय हुईं। पाठका नृत्य का प्रदर्शन उन्होंने 1990 के दशक में सोवियत रूस में कर दुनिया भर में पहचान दिलाई। वहीं जिला कार्यकारिणी सदस्य मुद्रिका बैगा ने कहा आदिवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा से शिक्षा को सर्वोपरि माना। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। आदिवासियों के हितों के लिए वे हमेशा कार्य करते रहे। यही कारण है कि वह 1980 के दशक में अमेरिका से अध्यापक की नौकरी छोड़ रांची चले आए। और यहां के दबे कुचले समाज तथा आदिवासियों की आवाज बन गए। मौके पर सुरेंद्र सिंह, तीर्थराज सिंह, बिदेश्वर सिंह, खरवार, निदेश कुमार सिंह खरवार, हरिमाल सिंह, चैतनाथ सिंह, सत्यनारायण सिंह, अर्जुन सिंह, सर्वेन्द्र सिंह मौजूद थे।

रमना में एक ही रात में तीन घरों में हुयी चोरी



रमना। रोहिला स्थित गड़ई टोला में मंगलवार की देर रात्रि तीन घरों में चोरी की घटनाएं हुयीं। चोरों ने नये कपड़ा की गठ सहित नकदी और जेवर पर हाथ साफ किया। पीड़ितों इरफान, काशिम अंसारी और ओहाब अंसारी शामिल हैं। सभी समानों की चोरी बंद और पुराने घरों से हुई है। सभी पीड़ितों बगल में ही नए मकान में रहा करते हैं। मुखिया अजीत कुमार पांडेय की सूचना पर घटना स्थल पर सदलबल पहुंचे थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा ने जांच आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं पर अनुसंधान आरंभ कर दिया गया है। फिलहाल पीड़ितों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना नकदी और कितने मूल्य के जेवर चोरी किये गये हैं।

करंट से दूधारू गाय की घटनास्थल पर मौत



चिनिया। थाना क्षेत्र के मसरा गांव के मुरटंगी टोला में 11000 विद्युत प्रवाहित पोल की चपेट में आने से मुरटंगी निवासी शिवपूजन यादव की एक दुधारू गाय की मौत घटना स्थल पर हो गई, जिससे पशुपालक शिवपूजन यादव को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार को पशुपालक शिवपूजन यादव के दर्जनों भवैशी जिसमें दुधारू पशु गाय भी थी चरने के लिए गांव के किनारे जंगलों में गई हुये थे। तभी 11000 बिजली के पोल में करंट आ जाने से दुधारू गाय की मौत हो गई। गाय काफी देर तक जलता रहा। इसकी सूचना पंचायत के मुखिया पति सह प्रतिनिधि उदय भुश्यां ने चिनिया विद्युत कर्मी सीमंत कुमार को दी। मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मी ने विद्युत सप्लाई को बंद कराया। उधर, पशुपालक ने बिजली विभाग से मुवावजे की मांग की है।

सरकार की ओर से निर्धारित मानकों को दिखाया जा रहा ठेगा, छापेमारी होने पर बंद कर फरार हो जाता है संचालक

जिंदगी से खिलवाड़ : झोलाछाप स्टाफ के सहारे चल रहा हॉस्पिटल

नवीन मेल संवाददाता। महुआडांड प्रखंड मुख्यालय स्थित दीप्ती हॉस्पिटल झोलाछाप स्टाफ के सहारे चल रहा है। इसके संचालक पर तय मानकों को अनदेखा कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में लोगों ने बताया कि उक्त हॉस्पिटल के संचालक निकेत कुमार के पास न तो मेडिकल स्टर का लाइसेंस है और न ही प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए डॉक्टर, नर्स और स्टाफ। संचालक के द्वारा

हॉस्पिटल में एक्स-रे मशीन, ऑपरेशन थियेटर, लैब, आदि तो स्थापित कर लिया गया है परन्तु प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए एक भी स्टाफ नहीं है। वहीं इलाज के नाम पर मरीजों से अनाप-शनाप पैसा भी लिया जा रहा है। लोगों ने उपायुक्त एवं सिविल सर्जन से दीप्ती हॉस्पिटल के संचालक निकेत कुमार पर जाचोंपरांत कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों ने बताया कि अवैध संचालकों के विरुद्ध छापेमारी के दरम्यान निकेत कुमार हॉस्पिटल



में छापेमारी की गई थी एवं निजी क्लीनिक खोलकर निजी प्रैक्टिस करने वाले तथाकथित डाक्टरों से

कागजात की मांग की गई। प्रशासन के द्वारा अचानक किये गये छापेमारी अभियान से

क्लीनिक खोलकर निजी प्रैक्टिस करने वाले तथाकथित डॉक्टरों में हड़कंप मच गया था। कई तथाकथित डॉक्टरों ने तो अपनी क्लीनिक में बाकायदा ताला लगा दिया था। बाद में मामला ठंडा होने पर पुनः खोल दिया गया।

तया कहते हैं 20सूत्री अध्यक्ष सह उपायुक्त

सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ठेगा दिखा कर संचालन कर रहे दीप्ती हॉस्पिटल के संचालक निकेत कुमार को लेकर 20सूत्री

अध्यक्ष सह प्रखंड उपायुक्त अभय मिंज ने कहा कि ये गलत है। संचालक निकेत कुमार पर अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मिंज ने उपायुक्त, सिविल सर्जन एवं सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से उक्त हॉस्पिटल की गहन जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

तया कहते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

दीप्ती हॉस्पिटल के संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

महुआडांड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमित खलखो ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही एक्स-रे मशीन, ऑपरेशन थियेटर, लैब आदि चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होती है। इसके बिना अस्पताल का संचालन नहीं हो सकता है। डॉ. अमित खलखो ने बताया कि दीप्ती हॉस्पिटल की जांच की जायेगी एवं नियम सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

नक्सली संगठन ने लेवी दिये बगैर कार्य न करने की दी है चेतावनी

टीपीसी के खौफ से कार्य ठप

नवीन मेल संवाददाता। महुआडांड नक्सली संगठन टीपीसी के भय से पिछले दो महीने से पीएचईडी विभाग से प्रवर्तन नगरी नेतरहाट में बन रही पानी की टंकी, इटकवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य बंद पड़ा है।

जानकारी के अनुसार पीएचईडी विभाग के पेयजल आपूर्ति योजना के तहत नेतरहाट तालाब के समीप बन रहे उक्त योजना को गत 13 जून को निर्माण कार्य स्थल के पास टीपीसी संगठन ने पोस्टर लगाकर कार्य बंद करने के निर्देश दिया था। तब से लेकर अभी तक निर्माण का कार्य संवेदक के द्वारा बंद कर रखा गया है। उक्त कार्य सेप्टरा पीओ और जेवी शिवा कांत मिश्रा नामक दो कंपनी मिलकर कर रही हैं। कार्य 2024 तक पूर्ण करना था लेकिन संवेदक द्वारा अब तक 50 प्रतिशत भी कार्य नहीं किया जा सका है।

चिपकाये गये पोस्टर में ठेकेदारों को चेतावनी जारी करते हुए लिखा



गया है कि क्षेत्र में हो रहे कार्य बिना संगठन को मैन्युअल किये न करें अन्यथा फौजी कार्रवाई की जायेगी। पोस्टर में चोर, दलाल को भी होशियार करते हुए लिखा गया है कि संगठन का नाम बेचकर कार्य न करें अन्यथा गोली खाने को तैयार रहें। इस संबंध में पूछे जाने पर नेतरहाट थाना प्रभारी

बंधन भगत ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने स्तर से मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि साल 2022 से ही नेतरहाट क्षेत्र में नक्सली धीरे-धीरे एक बार फिर दहशत फैलाने में जुट गए हैं। लंबे अरसे तक शांत रहने के बाद इस वर्ष नक्सली जिले में विकास

कार्यों में लगे मुंशी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही एक व्यक्ति की जान भी ले चुके हैं। वहीं इस संबंध में ठेकेदार एवं पीएचईडी विभाग के जेई से संपर्क स्थापित करने के लिए फोन भी किया गया पर फोन रिसेव नहीं किये जाने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई।

कोपे पंचायत में फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन



नवीन मेल संवाददाता। मनिका प्रखंड स्थित कोपे पंचायत खेल मैदान जेरुआ में चल रहा फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। बालिका टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को खसी एवं शील्ड दी गयी। द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को खिलाड़ियों को खसी एवं मेडल दिया गया। कमेटी की टीम को टी-शर्ट दी गयी। बालक टीम का मैच अगले रिविवा को सुबह 9:00 बजे उसी खेल मैदान में खेला जाएगा। मौके पर मुख्य अतिथि राजद नेता गिरजानंद सिंह, राजद युवा प्रखंड

अध्यक्ष मनिका रुपेश यादव, राजद नेता व्यास नागेंद्र यादव, श्याम बिहारी भुइया, अवधबिहारी सिंह, ग्राम प्रधान अरुण सिंह, कोपे पंचायत मुखिया पति सुदेश्वर सिंह, समाजसेवी रवीना बीबी, इनुश मिया, प्रेम कुमार सिंह, भूखन सिंह, खुशींद आलम, विकास सिंह, फुटबॉल कमेटी अध्यक्ष प्रदीप सिंह, सचिव सूरज सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल सिंह, वार्ड सदस्य विशाल सिंह, बलकेश्वर सिंह, जीवनंद सिंह, निर्मल सिंह, सतीश यादव, बबलू सिंह, राकेश तिवारी आदि उपस्थित थे।

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर दी बधाई

चंद्रवा। बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से ही देश में जश्न का माहौल बन गया। लोगों ने जैसे ही टीवी में इसरो के द्वारा घोषणा की सूचना देखी सभी के चेहरे पर चमक आ गयी। चंद्रवा के वरीय भाजपा नेता महेंद्र साहू ने कहा कि यह देश के लिए गौरव का क्षण है। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस कार्य हेतु साधुवाद दिया। कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने बता दिया कि हम किसी भी मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। राजकुमार साहू और राजकुमार पाठक ने कहा कि अब चांद दूर नहीं। भारत के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज का भारत किसी से पीछे नहीं। प्रभाकर मिश्र ने कहा कि जब भारत मिशन फेल होने के बावजूद भारत के वैज्ञानिक ने तन्मयता से इस मुहिम से जुड़े रहे। उनकी सफलता से आज पूरा देश झूम रहा है।

कार्यक्रम

प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुये श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता

होनहार छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित



संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके बिना बहुत सारी योजनाओं का निर्वहन कर पाना मुश्किल दिखता है। हमारे विद्यार्थी जिला के साथ-साथ राज्य में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या

पढ़ाई का। अगर विद्यार्थियों को कुछ और भौतिक सुविधाएं मिल जाय तो विद्यालय का मनोबल ऊंचा होगा और विद्यार्थियों का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकेगा। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि सह मंत्री श्री

भोक्ता ने कहा कि उनकी पढ़ाई-लिखाई की शुरूआत इसी विद्यालय से हुई है एवं इस क्षेत्र के विकास के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने विद्यालय को प्लस टू में उन्नत करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि

विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था एवं भवन का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य में इस बार के माध्यमिक परीक्षा में हमारे जिले का तीसरा स्थान रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता विद्यालय में कराई जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति प्रस्कार से सम्मानित पूर्व शिक्षक देवचरण दांगी ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए कई उदाहरण पर प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है एवं बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।

कांग्रेस नेता के समक्ष रखी क्षेत्र की समस्याएं

बरवाडीह। लातेहार जिला मुख्यालय में आगमन के दौरान झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी उमेश खान को वरिष्ठ समाजसेवी हाजी मुमताज अली ने बकोरिया पेट्रोल पंप परिसर में भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। अली ने अंसारी के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष को बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अल्पसंख्यक पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव से कांग्रेस के साथ सदैव ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अंसारी ने आश्चर्य किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की समस्याओं का समाधान निकल सके और उनका भरपूर विकास हो इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। अल्पसंख्यकों के हित में इस क्षेत्र में योजनाएं संचालित करवाए जाएं। मौके पर हेसमुल अंसारी, दिलवार अंसारी आदि मौजूद थे।



हाथियों के कारण बीसो डारी टोला के ग्रामीणों को करीब पांच लाख रु का आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है और इस बरसात की मौसम में उनके घर ध्वस्त हो जाने से उनके समक्ष रहने खाने और सोने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

पीड़ित परिवार के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से तत्काल मुआवजा राशि के साथ-साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने तथा इस क्षेत्र से जंगली हाथियों को भगा कर बेतला वन क्षेत्र में ले जाने की मांग की है।

संक्षिप्त

बिजली करंट से युवक की मौत, शोक की लहर बालूमाथ। थाना क्षेत्र के सेरगड़ा ग्राम में बुधवार को सुबह बिजली करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इसकी पहचान सेरगड़ा ग्राम निवासी मोहम्मद मिनहाज के चौथे पुत्र मोहम्मद गुफरान के रूप में हुई है। वह बुधवार सुबह अपने घर से मवेशी को लेकर चारा खिलाने के लिए खेत की ओर ले जा रहा था कि इसी दौरान बीच रास्ते में गिरे बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। उसे गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया जहां पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जांचों प्रांत बिजली करंट की चपेट में आने से युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में शोक की लहर देखी जा रही है।

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सिमरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा की सचिव प्रजा वाजपेई के निदेशानुसार बुधवार को सिमरिया प्रखंड मुख्यालय में संचालित अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पीएलवी सुबोध कुमार शर्मा एवं रंजन कुमार मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पीएलवी ने बताया कि मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है, इसमें सभी सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई और बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं व नशा पीड़ितों के लिए संचालित विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई।



टीमें राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने रवाना महुआडांड। महुआडांड प्रखंड के संत मिखाइल साले विद्यालय से बालक व बालिका हॉकी टीम के साथ संत जोसेफ प्लस टू विद्यालय की हॉकी टीम खेले झारखंड जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुईं। इन तीनों टीमों को खुशींद खान, महाताब आलम व संत जोसेफ प्लस टू विद्यालय के खेल पदाधिकारी सुशांत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रतियोगिता खुंटी में आयोजित हो रही है, जो 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चलेगी।

छात्राओं को दी मतदाता से संबंधित जानकारी गिद्धौर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुधवार को बीडीओ संजीत कुमार सिंह व सीओ जयशंकर पाठक पहुंचे। जहां अधिकारियों ने गठित क्लब में मतदाताओं व भविष्य की मतदाताओं के आहर्ता व मतदान प्रक्रिया के साथ फॉर्म 6, 7, 8 भरने की विस्तृत जानकारी छात्राओं को दी। साथ ही बीडीओ ने छात्राओं को इतिहास व पॉलिटेकल साइंस की जानकारी भी दी। मौके पर विद्यालय वार्डन नूतन मरियम कच्छप, सीआरपी राजकुमार राजू सहित शिक्षक व शिक्षिका उपस्थित थे।

प्रस्तावित सभा सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता टंडवा। बुधवार को टंडवा प्रखंड क्षेत्र के सुदूरपूर्वी गांव उरदा में खातियांनी संघर्ष समिति के बैनर तले टाइगर जयराम की सभा को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। समिति के बिजली महतो ने बताया कि पिछले दिनों रविवार को टाउन हॉल टंडवा में बैठक आयोजित कर प्रखंड कमिटी का गठन आगामी 27 अगस्त को समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम की सभा को सफल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यक्रम बाबा घाट मैदान चतरा में निर्धारित है, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अधिकारिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु गठित

आये दिन हो रही दुर्घटनायें, कोई नहीं दे रहा ध्यान

एनएच 143 ए पर मुख्य बाजार गेट पर बना जानलेवा गड्ढा

नवीन मेल संवाददाता। कुडू एनएच 143 ए कुडू-लोहरदगा मुख्य मार्ग में इंदिरा गांधी चौक के नजदीक साप्ताहिक बाजार के मुख्य गेट के सामने बीच सड़क पर बने जानलेवा गड्ढे इन दिनों राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आए दिन इस गड्ढे में दो पहिया वाहन दुर्घटना होती रहती है। इस जानलेवा गड्ढे में बाजार ताड़ गेट का नाली का गंदा पानी हर समय भरा रहता है, जिसके दुर्गंध से आस-पास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किसी भी चौपहिया वाहन के इस रोड से गुजरने पर गंदा पानी का छिड़काव आम लोगों पर होते रहता है।



दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कुडू-लोहरदगा रोड निर्माण योजना के तहत कुडू में बन रहे रोड और नाली निर्माण कार्य भी इससे लगभग एक सौ फीट पहले तक करके पिछले

दो माह से संवेदक ने बंद कर दिया है। ज्ञात हो कि इस सड़क से आए दिन यहां के स्थानीय विधायक व राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का काफिला सहित अन्य नेता मंत्री रोड में बने इसी जानलेवा गड्ढे को

पर कर गुजरते रहते हैं लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर समय रहते जल्द इस गड्ढे को नहीं भरा गया तो कभी भी गंभीर दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चंद्रयान की सफलता के लिए की गयी विशेष पूजा

नवीन मेल संवाददाता। लोहरदगा चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के लिए बुधवार की सुबह बरवाटोली चौक स्थित प्रसिद्ध मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और हवन किया गया। अनुष्ठान के माध्यम से चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।



इस दौरान उपस्थित भक्तों ने चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए माता रानी से प्रार्थना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार साहू ने कहा कि आज बहुत

ही ऐतिहासिक पल है। आज देश का सिर पुरे विश्व के सामने गर्व से ऊंचा उठ गया है। हम सभी माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि माता रानी की कृपा रही तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। कहा कि यह

देश के गौरव का क्षण है। सभी की निगाह इस समय चंद्रयान-श्री के सफल लैंडिंग को लेकर टिकी हुई है। यह अभियान हमारे देश के गौरव को और भी बढ़ाने का काम करेगा। पूजा अनुष्ठान के दौरान संरक्षक शंभू साहू, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, लवकुश अग्रवाल, अनिश अग्रवाल, सुमित कुमार समेत काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और अन्य मौजूद थे। गौरतलब है कि लोग चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ी पल-पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं।

कल्याण अस्पताल में हेल्थ कैंप 26 को

लोहरदगा। कल्याण अस्पताल हेसल बसारडीह लोहरदगा में निशुल्क मेगा मेडिकल चेकअप हेल्थ कैंप का आयोजन शनिवार को किया जायेगा। इसमें मेडिका हॉस्पिटल रांची के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रोहित कुमार डीएम, नस रोग विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार, एमसीएच न्यूरो सर्जरी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद दिया, अनुराधा एवं जनरल फिजिशियन डॉ. केसी लाल मरीजों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच करेंगे।

दो लाभुकों के बीच किये बोलेरो व ट्रैक्टर वितरित



नवीन मेल संवाददाता। लोहरदगा उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत दो लाभुकों के बीच बुधवार को समाहरणालय परिसर में वाहन का वितरण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा वाहन की चाभी भी लाभुकों को सौंपी गई।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत बराटपुर ग्राम निवासी रमेश उरांव को चौपहिया वाहन बोलेरो और अंबेरा ग्राम निवासी रीतिक कुमार को ट्रैक्टर वाहन प्रदान किया गया है। मौके पर आईटीडीए परियोजना निदेशक अरविंद कुमार लाल, जिला कल्याण पदाधिकारी नारायण राम समेत अन्य उपस्थित थे।

चोरी के आरोपी का पिता गिरफ्तार, सुधार गृह भेजा नाबालिग को

सेन्हा। थाना क्षेत्र के बरही चटकपुर निवासी गजेधर महतो के 22 वर्षीय पुत्र रामबालक महतो के घर में खिड़की के रास्ते घुस कर सैमसंग मोबाइल एवं 20 हजार नगद चोरी का मामला प्रकाश में आते ही सेन्हा थाना के एस आई गणेश कुमार यादव दलबल के साथ घटना की अनुसंधान में जुट गए। उसी दौरान लोहरदगा थाना क्षेत्र के ईटा निवासी प्रहलद साहू पिता रंथू साहू एवं 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र का वादी के घर में घुसने तथा चोरी करने की पुष्टि होने पर सेन्हा थाना पुलिस द्वारा कानूनी कारवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लोहरदगा जेल भेज दिया गया एवं नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह गुमला भेजा गया। बरही चटकपुर निवासी रामबालक महतो के घर में घुस कर एक मोबाइल एवं नगद 20 हजार का चोरी किया गया था।

संक्षिप्त

खनन टास्क फोर्स व एनजीटी की बैठक हुयी लोहरदगा। उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स और एनजीटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सक्षेत्र में 15 दिनों में अवैध बालू उठाव, परिवहन, खनन संबंधी थाना स्तर से की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। प्रखंडवार कार्रवाई व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि नियमित रूप से अवैध बालू उठाव/परिवहन, चिप्स-पत्थर का अवैध खनन/परिवहन, बॉक्सआईट का अवैध खनन/परिवहन संबंधी जांच का कार्य किया जाय। साथ ही, उठाव संबंधी चालान की भी जांच की जाय। एनजीटी अंतर्गत जारी आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों को दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता समीरा एस, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सहायक खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद, नगर परिषद प्रशासक देवेन्द्र कुमार, सदर अंचल अधिकारी सन्नी कुमार दास समेत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों, अंचल अधिकारी व थाना प्रभारीगण उपस्थित थे।

ब्रह्माकुमारी बहनों ने बीडीओ को बांधा रक्षा सूत्र मनिा। बीडीओ वीरेंद्र किंडो को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें मिठाई खिलायी। वहीं बी के कविता बहन ने बताया कि यह पर्व केवल भाई बहनों के संबंध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें उस स्लोगन की याद दिलाता है जिसमें कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई-भाई। रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ है, विकारों और बुराइयों रूपी दुश्मन से हम अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो। मौके पर उपस्थित बहनों ने बीडीओ वीरेंद्र किंडो से आशीर्वाद भी लिया और बुराइयों का त्याग व परमात्मा से सुख शांति एवं दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। मौके पर ज्योति बहन, शैल माता उपस्थित थीं।

तुलसीदास जयंती पर प्रतियोगिता आयोजित बालुमाथा। प्रखंड मुख्यालय स्थित मूरत यादव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी रामनाथ सिंह एवं शैलेश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के साथ कई अभिभावक भी मौके पर मौजूद रहे। निबंध प्रतियोगिता में दीपक कुमार, रिशु पासवान, सुधा सिंह, सभी कक्षा अष्टम एवं रूनुजन, कंचन, पुष्पांजलि कक्षा सप्तम एवं षष्ठ में ऋषभ, माही एवं अंकित क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए। उन्हें अतिथियों ने कलम उपहार में दिया।

शिव मंदिर का स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न बरवाडीह। प्रखंड के मंगरा में स्थापित शिव मंदिर के 12वें स्थापना दिवस को लेकर तीन दिवसीय कार्यक्रम का बुधवार को भंडारा कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन मुख्य यजमान सुकन सिंह, उनकी पत्नी, सुमित गांव के एक दर्जन से अधिक भक्तों द्वारा हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भंडारा कार्यक्रम की शुरुआत कांसेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर विजय बहादुर सिंह, विधायक प्रतिनिधि प्रेम कुमार सिंह पिंटू, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि रविंद्र राम ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम में मुखिया विपिन बिहारी सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जायसवाल, अनिल कुमार सिंह, शुक्न सिंह, अनिल कुमार सिंह, शिवानंद तिवारी, कुलेश्वर सिंह, जिवोध सिंह, चंद्रशेखर सिंह, बसंत ठाकुर, लक्ष्मण सिंह आदि शामिल थे।

मानस, उपनिषद व श्रीमद्भागवत गीता का पाठ चरारा। जिला मुख्यालय स्थित इंदुमति टिबडैवाल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय दीर्घा में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संत शिरोमणि तुलसीदास की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रामचरित्र मानस, उपनिषद व श्री मद्भागवत गीता पाठ का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय के भैया-बहनों के बीच चित्रांकन, निबंध और सुलेख लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हठयोगी जी महाराज व विद्यालय के प्राचार्य पवन कुमार दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व पुष्पांचन कर किया। हठयोगी जी के द्वारा श्री रामचरित्र मानस का चौपाई, उपनिषद व श्रीमद्भागवत गीता के पवित्र श्लोक का सस्वर संगीतमय पाठ की प्रस्तुति की गई। उन्होंने मुख्य रूप से संत शिरोमणि तुलसी दास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विद्यालय के संगीत आचार्य सिद्धेश्वर गोस्वामी व साक्षी दुबे द्वारा एक अतिपावन भजन की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के तीनों खंड के भैया-बहनों ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी पर प्रकाश डाला।

तुलसीदास की जयंती पर हुये कार्यक्रम

नवीन मेल संवाददाता। लोहरदगा/सेन्हा



सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर लोहरदगा में तुलसी जयंती के अवसर पर सुलेख एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि तुलसीदास जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र पांडे द्वारा गोस्वामी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। पूर्व आचार्य कमलावती सिंह ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन संघर्ष में रहा किंतु इस संघर्ष युक्त जीवन में भी उन्होंने हिंदू संस्कृति को संरक्षित एवं प्रचारित करने का कार्य किया। अमृता कुमारी ने भी तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डाला। तृषा जायसवाल, आकृति भगत, पायल एवं पूर्णिमा के द्वारा गुरु विश्वामित्र की सेवा प्रसंग का मानस पाठ किया गया। मानस पाठ गुरु वंदना त्रिलोचन साहू द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणेश साहू द्वारा रामचरित्रमानस की महिमा पर व्याख्यान दिया गया।

चेतन, मिशन से जुड़े शिवाजी सिंह परमार एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह किनेश्वर महतो विशेष रूप से उपस्थित हुए। मौके पर राजीव चेतन ने कहा कि अपने देश के महापुरुषों ने देशवासियों में आध्यात्मिक चेतना एवं देशभक्ति जगाने का कार्य किया है। समारोह में भैया बहनों ने रामचरित्रमानस के संकलित प्रसंग का सस्वर वाचन एवं तुलसीदास की जीवनी पर अभिभाषण प्रस्तुत किया। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम प्रस्तुति में बहन पुष्पा नगर एवं भैया मृत्युंजय विश्वकर्मा रहे। मंच का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के आचार्य विष्णु दत्त पांडेय ने किया। मौके पर प्रधानाचार्य बिपिन कुमार दास, श्यामसुंदर पाठक समेत अन्य आचार्य मौजूद थे।

डीप बोरिंग योजना की रखी गयी आधारशिला

लोहरदगा। उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में 72-लोहरदगा के नगर परिषद, लोहरदगा अंतर्गत चार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण संबंधी बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में चार मतदान केंद्र 259, 262, 274 और 286 का युक्तिकरण किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त समीरा एस, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद लाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी नारायण राम, नगर परिषद प्रशासक देवेन्द्र कुमार, सदर अंचल अधिकारी सन्नी कुमार दास, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिनिधि मौजूद थे।

कार्यालय नगर पंचायत छतरपुर (पलामू)

अति-अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-NPC-NIT-07/2022-23 (2nd Call)

- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, छतरपुर (पलामू)।
- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- दिनांक-24.08.2023
- ई-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक-24.08.2023 एवं 05.00 बजे अपराह्न से।
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-04.09.2023 एवं समय: 5.00 बजे अपराह्न तक।
- वेबसाइट पर अपलोड किये गये दस्तावेज की मूल प्रति जमा करने का स्थान, तिथि एवं समय :- कार्यालय नगर पंचायत, छतरपुर/दिनांक: 05.09.2023/समय: 1.00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समय :- कार्यालय, नगर पंचायत, छतरपुर के कार्यालय वृक्ष, छतरपुर /05.09.2023 /02.00 बजे अपराह्न।
- निविदा प्रकोष्ठ का मोबाइल संख्या :- 9608834366 एवं 7779992012
- कार्य मद :- 15^{वें} वित्त आयोग।

क्रं सं	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (₹0 में)	निविदा शुल्क (₹0 में)	अग्रघन की राशि (₹0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
5	Construction of water supply scheme with DC motor pump complete set for supply water scheme for wards areas which is not included in MVS and no electricity or less electricity on 2 Nos 200*165*200m deep HYDT/HYGPT Having potential to supply water 2000 LPH maximum at 24*7 supply water scheme in Tenuidih in Sadma in ward no.16 under Nagar Panchayat Chhattarpur for the year 2022-23.	22,58,418.00	10,000.00	45,200.00	60 Days

नियम एवं शर्तें:-

- केवल ई-निविदा ही स्वीकार की जाएगी।
- संवेदक द्वारा ई-निविदा में अपलोड किया गया सभी दस्तावेज तथा संवेदक का निबंधन प्रमाण-पत्र, UCAN, आयकर रिटर्न (विगत तीन वर्षों का), जीएसटी0 रिटर्न (विगत तीन माह का), निबंधन प्रमाण-पत्र, जीएसटी0 स्वच्छता प्रमाण-पत्र, PAN कार्ड, आधारकार्ड, चरित्र प्रमाण-पत्र, अग्रघन की राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क, शपथ- पत्र की मूलप्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेज दिनांक-05.09.2023 को अपराह्न 01:00 बजे तक नगर पंचायत, कार्यालय, छतरपुर में जमा करना अनिवार्य है।
- निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट "कार्यालय पदाधिकारी, नगर पंचायत, छतरपुर" के पक्ष में, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक छतरपुर, शाखा में भुगतान होगा, जो कि लौटाना नहीं जायेगा।
- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
- निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारियाँ udhd.jharkhand.gov.in या <http://jharkhandtenders.gov.in> या www.palamu.nic.in पर एवं नगर पंचायत, छतरपुर कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक देखा जा सकता है।

कार्यालय पदाधिकारी, नगर पंचायत, छतरपुर

PR 305356 District(23-24)#D

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PLANNING AND INVESTIGATION DIVISION ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT (RCD),RANCHI

Nirupan Bhawan, 3rd Floor, Room No. 401, 56-Set, Doranda, Ranchi-834002

e-Procurement (Very Short Tender Notice)

Letter of Invitation (LOI) No.-14/2023-24

1st Call

e-Tender Ref No:- RCD/PID/RANCHI/14/2023-24

Date:-18.08.2023

Sl No	Name Of Work	Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report of Kailan to Bishunpura Road via Bardha including replacement of Culverts, Bridges, ROB'S, RUB'S, Complete Land Acquisition Proposal including Ownership details all complete as per latest guidelines, Resettlement and Rehabilitation Proposal, Forest Diversion Proposal and Proposal of Utility Shifting in details etc. as required by the Department(if any) under Road Division, Garbha in the State of Jharkhand. *Empanelled consultant with RCD under category-I vide letter No. 3063(S) WE Dated 2.08.2022 are allowed to bid only.
2	Tentative Length	25.00 Km
3	Period of Completion of Work	60 Days
4	Cost of Tender documents	Demand Draft/Banker Cheque of any Scheduled B bank (non-refundable fee) of Rs5,000/- (Five Thousand) only. EMD- 2% of the quoted amount (Net of GST) in the form of current issue of NSC, Fixed Deposits of a Scheduled Bank (all the above mentioned form of Security deposits money issued within the State of Jharkhand) and Bank Guarantee issued by any Scheduled bank anywhere in India duly pledge in favour of Executive Engineer, Planning & Investigation Division, Road Construction Department, Ranchi for a period of 45 days beyond the validity of bid.
5	Mode of Bid Submission	e-tendering(http://jharkhandtenders.gov.in)
6	Date/Time of Publication of Tender on Website	28.08.2023, 10:30 AM
7	Online Last Date/Time of Bid Submission	05.05.2023 12:00 PM
8	Last Date/Time of Submission of Hard Copy of Tender Fee & EMD	06.09.2023 12:00 PM
9	Date and Time of Bid opening	06.09.2023 12:30 PM
10	Bid validity	120 days
11	Bid Submission Address	Chief Engineer(Communication), Road Construction Department, 1 st Floor, Engineer Hostel No.-2, Dhurva, Ranchi-834004
12	Designation and Contact no. of Tender inviting Officer	Executive Engineer, Planning and Investigation Division, RCD, Ranchi, Mob No.-8083039058

Note:- Only e-Tender shall be accepted. Sd/- Executive Engineer, Planning & Investigation Division, Road Construction Department, Ranchi. PR 305311 Road(23-24)D

पहल पंचायत भवन में कैंप का आयोजन

कार्डधारियों के बीच धोती साड़ी व लुंगी का वितरण

नवीन मेल संवाददाता। सेन्हा सेन्हा पंचायत भवन में प्रखंड आपूर्ति विभाग के निर्देश पर सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी व लुंगी वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ 20 सूत्री अध्यक्ष अफरोज आलम, उपाध्यक्ष राजकिशोर राम एवं आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कार्ड धारियों के बीच धोती साड़ी व लुंगी वितरण कर किया गया।



साड़ी एवं लुंगी वितरण में पीडीएस संचालक अजय साहू, फिरोज अख्तर, नारायण महतो, गुजरात खान, केशो ठाकुर सहित अन्य पीडीएस संचालक एवं लाभुकों उपस्थित थे। कैंप के दौरान पीडीएस कार्ड धारियों को योजना का लाभ उठाने की सलाह देते हुए आपूर्ति पदाधिकारी अमूल तिकी ने

कहा कि सेन्हा पंचायत में प्रत्येक कार्डधारी को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं 20 सूत्री अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के वृद्ध असहाय व गरीब लोगों के लिए यह योजना लाया गया है। इसका लाभ स्थानीय व क्षेत्रीय पीडीएस संचालक द्वारा कार्डधारियों को दिया जाना है।

स्नैप ने पुलकित त्रिवेदी को बनाया भारत के लिए प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली। स्नैपचेट की पेरेंट कंपनी स्नैप ने बुधवार को पुलकित त्रिवेदी को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, जो स्नैप के एपीसी अध्यक्ष अजित मोहन को रिपोर्ट करेंगे। त्रिवेदी गुगल से स्नैप में शामिल हुए, जहां उन्होंने पिछले पांच साल गुगल पें-इंडिया बिजनेस टीम के निदेशक के रूप में बिताए हैं। अपने नए रोल में, त्रिवेदी अर्गिनाइजेशन के इंडियन ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें रेवेन्यू बढ़ाना, सपोर्टिंग पार्टनर्स और क्लिपट इकोसिस्टम का बढ़ावा देना शामिल है। मोहन ने कहा, 'स्नैपचेट के निर्माण और विस्तार में उनकी गहरी विशेषज्ञता है, जो भागीदारों के लिए बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। हम भारत में 200 मिलियन से अधिक स्नैपचेटर्स के अपने बढ़ते कम्प्यूनिटी को खुश करना जारी रख सकेंगे। एक नए ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के तहत, प्रोड, मार्केट डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, कंटेंट और क्लिपट इकोसिस्टम टीम अब सीधे त्रिवेदी को रिपोर्ट करेंगी। त्रिवेदी ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

अमेजन के राखी स्टोर के संग रक्षाबंधन त्योहार बनाए खास राखी

राखी। अमेजन डॉट इन के खासतौर पर तैयार किए गए राखी स्टोर के साथ प्यार के रिश्ते का जश्न मनाने और भाई-बहन के पवित्र बंधन को और मजबूत करने का है। यह राखी स्टोर 30 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। हमारे ग्राहक टेक्नो, हार्पिस, लिंइट, फैबेले, फेरेरो, कैडबरी, बोट, फुजीफिल्म इंस्ट्रूज्मेंट्स जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के आकर्षक ऑफर और डीलस का फायदा उठा सकते हैं। ग्राहक हार्मर्स और कॉम्बो, पारंपरिक और डिजाइनर राखी, गिफ्ट कार्ड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्रासरी और रोजाना की जरूरी चीजों, हैंडबैग, परफ्यूम, चड़ियां, परिधान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैमरे, स्मार्टफोन, फुटवेयर, खिलौनों एवं बोर्ड गेम्स, चॉकलेट आदि में से अपनी पसंद का गिफ्ट चुन सकते हैं। राखी कॉम्बो सेट के साथ भाई-बहन के बंधन को सेलिब्रेट करें। हाथों से बनाई गई पारंपरिक कुंदन राखी कारीगरों के बेजोड़ हुनर का शानदार नमूना है। सेट रोली-चावल पाउच के साथ आता है। अमेजन पर यह 116 रुपये में उपलब्ध है। रिट्टिका वेंचर्स स्टडीलिश कुंदन और एडी रिंग राखी (2 का सेट) (ब्रेसलेट) रोली चावल और ग्रीटिंग कार्ड के साथ उपलब्ध है। यह 198 रुपये में उपलब्ध है।

JHARKHAND BIJLI VITRAN NIGAM LTD
(CIN: U40108JH2013SGC001702)
ELECTRIC SUPPLY CIRCLE, GARHWA
Email: esegarhwa@yahoo.in
Cancellation Tender Notice
Due to unavoidable reason, NIT No - 80/PR/JBVNL/2023-24 is hereby cancelled.
स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचावों। कृपया अपनी शिकयतों को टॉल फ्री नं० 1800 345 6570 पर दर्ज करावें।
Sd/-
PR No. 301988
Dy. General Manager (Tech)
Electric Supply Circle, Garhwa
PR 305343 Jharkhand Bijlee Vitran Nigam Ltd(23-24)D

कार्यालय, गढ़वा नगर परिषद, गढ़वा
शुक्ति-पत्र
कार्यालय नगर परिषद गढ़वा के द्वारा NIQ. No: GNP-01/2023-24 (Online Quotations are invited for the work Construction of Proposed Additional Furnishing Works at Multipurpose Cultural Complex For Garhwa Nagar Parishad (Jharkhand) का सूचना प्रकाशित किया गया था, जिसका PR 304593 Urban Development (23-24)#D है। उक्त NIQ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-
1. Date of Publication of E-Quotations on Website - 28.08.2023
2. Last Date/Time of upload of E-Quotations on Website -05.09.2023
3. Date/Time of opening of E-Quotations- 06.09.2023
शेष सभी पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।
ह०/-
कार्यालय पदाधिकारी,
नगर परिषद गढ़वा।
PR 305386 (Urban Development) 23-24 (D)

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढ़वा
आवश्यक सूचना
(लापता सकीला बीबी उम्र-26 वर्ष)

मेराल थाना सनहा सं०-18/2023, दिनांक-17.08.2023 में लापता महिला सकीला बीबी पति-नौसाद अंसारी, ग्राम-तिसर टेटुका, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड, के रहने वाली है। जो दिनांक-15.08.2023 को रात्री करीब 12:00 बजे घर से बिना किसी को बताये कहीं चली गयी है। जो अभी तक वापस घर नहीं आयी है। इसके परिवार के द्वारा काफी खोजबीन किया गया। परन्तु अबतक पता नहीं चल सका है। अतः आम जनता से अनुरोध है कि लापता महिला सकीला बीबी के बारे में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो तो पुलिस उपअधीक्षक (मुख्यालय), गढ़वा के मोनॉ-9431706284 या पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के मोनॉ-9431706281 पर सूचित करने की कृपा करें।
दुलिया-
नाम-सकीला बीबी
पति-नौसाद अंसारी,
ग्राम-तिसर टेटुका,
संग-गोरा,
लम्बाई-लगभग 5 फीट,
पहनना-सफेद रंग का सूट।
निवेदक,
पुलिस अधीक्षक, गढ़वा
PR 305324 Police(23-24).D

अब किसानों को होगा बड़ा मुनाफा
उच्च कीमत पर प्याज खरीदेगी केन्द्र सरकार



एजेंसी। नई दिल्ली टमाटर के बाद देश में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई जगहों पर प्याज को 25 रुपये प्रति किलो पर बेचने की व्यवस्था की है। अब सरकार ने कहा है कि प्याज को किसानों से उच्च रेट पर खरीदा जाएगा। इससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार ने 2410 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज खरीदने का वादा किया, जो मौजूदा मंडी भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा है। सरकार ने सब्जी पर 40 फीसदी निर्यात कर से प्रभावित किसानों की मदद करने की मांग की थी, जिस कारण प्याज किसानों और व्यापारियों का मानना है कि इस कदम से बाजार में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और किसानों की सहकारी संस्था नेफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से अगले कुछ हफ्तों के दौरान एक्सट्रा 0.2 मिलियन टन (एमटी) प्याज खरीदेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि वर्तमान में प्याज का निर्यात की फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) कीमतें करीब 320 डॉलर प्रति टन है, भारतीय रुपये के हिसाब से किलोग्राम में 18-20 रुपये है। यह उस कीमत से काफी कम है, जिसपर एजेंसियां स्थिर सब्जियां खरीदना शुरू करेगी। अप्रैल-जून (2023-24) के दौरान प्याज का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26 फीसदी से अधिक बढ़कर 0.63 मीट्रिक टन हो गया। वहीं भारत ने 2022-23 में रिकॉर्ड 215 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 65 फीसदी ज्यादा है। निर्यात करने वाले देशों में बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका और नेपाल की बड़ी हिस्सेदारी थी। सरकारी डाटा के मुताबिक, साल की शुरुआत से प्याज की मांडल खुदरा कीमतें 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर मंगलवार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि खुदरा प्याज की कीमतें अगले महीने 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है।

मुकेश अंबानी को 23,700 करोड़ का झटका लगातार तीसरे दिन गिरावट

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में गिरावट का दौर आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। तीन में इसमें 15 परसेंट गिरावट आ चुकी है। बुधवार को यह पांच परसेंट लोअर सर्किट के साथ खुला। बीएसई पर यह मंगलवार को यह 239.20 परसेंट पर बंद हुआ था और आज 227.25 रुपये पर खुला। एनएसई पर भी यह पांच परसेंट की गिरावट के साथ 224.65 रुपये पर खुला। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल में अपनी फाइनेंशियल बिजनेस को अलग किया था और इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम दिया गया है। रिलायंस के शेयरहोल्डर्स को प्रत्येक शेयर पर जेएफएसएल का एक शेयर दिया गया था। लगातार तीन दिन की गिरावट के कारण कंपनी के मार्केट कैप में 27,300 करोड़ रुपये की गिरावट आई है और यह अब 1,44,378.38 करोड़ रुपये रह गया है। 20 जुलाई को प्री-लिस्टिंग में इसकी वैल्यू 261.85 रुपये निकली थी जो ब्रोकरेज कंपनियों के अनुमान से ज्यादा थी। 21 अगस्त को बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 265 रुपये पर हुई थी जबकि एनएसई पर यह 262 रुपये पर लिस्ट हुआ था।

कार्यालय अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चतरा
अति अत्यकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० -02/2023-24
1. विज्ञापन दाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चतरा।
2. परिमाण विपत्र की विक्री की तिथि : 04.09.2023 से 05.09.2023 तक कार्यालय अवधि में।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : 06.09.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 06.09.2023 अपराह्न 3:30 बजे
5. परिमाण विपत्र की विक्री का स्थान: (1) मुख्य अभियंता (यातायात) का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची, इंजीनियरिंग हॉस्टल, नं०-2, धूर्वा, राँची। (2) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, हजारीबाग। (3) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चतरा।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : क्रमांक 5 पर वर्णित स्थान
7. कार्य विवरणी :

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	अग्रघन की राशि (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	चौपारण - चतरा पथ (MDR-68) के कि०मी० 48वें (विकास भवन) से नगर्वो बाईपास पथ में साधारण मरम्मत कार्य।	25.00	5000=00	50000=00	02 (दो) माह
2	सिमरिया-बगरस पथ के कि०मी० 0.00 से 8.975 तक में साधारण मरम्मत कार्य।	30.00	5000=00	60000=00	02 (दो) माह

निविदा की शर्तें www.jharkhand.gov.in, एवं कार्यालय से सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
नोट : परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रघन की राशि का अंकलन मान्य होगा।
कार्यालय अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
PR 305341 (Road)23-24*D

कार्यालय अभियंता का कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम पलामू, मेदिनीनगर
ई० पुननिविदा संख्या-02/2023-24/RDD/NREP/PALAMAU
Re-Tender
1. कार्य का नाम :-
शुप सं० योजना का नाम प्रारंभ प्राणराशि (लाख में) अग्रघन की राशि परिमाण विपत्र की मूल्य कार्य पूर्ण करने की अवधि आईडेन्टी फिकेशन संख्या
5 ग्राम-सरैना, पंचायत-तेतराई में भेड़ियाही आहर पुल से सुकन मोधी के घर तक पीसीसीओ पथ निर्माण। पांकी 24.318 50000.00 5000.00 3 माह मात्र Re-Tender 05/2023-24/EE/RDD/NREP/PALAMAU
2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- 24.08.2023
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 30.08.2023 up to 5.00 PM बजे तक
4. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम कार्यालय, मेदिनीनगर, पलामू में निविदा शुल्क, अग्रघन की राशि, शायद पत्र की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समय-31.08.2023 अपराह्न 1.00 बजे तक
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 31.08.2023 अपराह्न 02.00 बजे
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम कार्यालय, मेदिनीनगर, पलामू।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० -7004461384
8. निविदा शुल्क :- किसी भी S.B.I. बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम पलामू के पक्ष में भुगतान होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।
9. निविदादाता को UCAN Registration (up to date) की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
10. प्राक्कलित राशि बढ़ या घट सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय, ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, मेदिनीनगर, पलामू।
PR.NO.305312 NREP(23-24):D

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढ़वा
आवश्यक सूचना
(नोटिस)
नाम-(1) काण्ड के प्रा०अभि०- प्राथमिकी अभियुक्त राजु भुईया उर्फ राजु, पे०-छोटेराल भुईया, सा०-लवाही, थाना-डण्डई, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड। भण्डरिया थाना काण्ड सं०- 45/2018, दिनांक-30.05.2018, धारा-147/148/149/341/323/342/324/379/435/427/387/504/506 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी०एल० ए० एक्ट एवं 38/19 यू०ए०पी० एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त राजु भुईया उर्फ राजु, पे०-छोटेराल भुईया, सा०-लवाही, थाना-डण्डई, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त है, जो उक्त काण्ड में फिरार है। माननीय न्यायालय, गढ़वा से फिरार है। आपको सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय, गढ़वा में अविजल आत्मसमर्पण करना सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक,
गढ़वा
PR 305308 Police(23-24).D

मेक्सिको लूटपाट में भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या

एजेंसी। न्यूयॉर्क मेक्सिको सिटी में लूटपाट के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दो भारतीय नागरिकों पर हमला किया और गोली चला दी। इसमें से एक की गोली लगने से मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना 19 अगस्त को राजधानी शहर के अल्यारिन इलाके की है। मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने अधिकारियों से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आग्रह किया है। दूतावास ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया, शरण दिल देकर देना देना वाली घटना में, मेक्सिको में रहने वाले एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूतावास और इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेक्सिको उनके परिवार के संपर्क में हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम मेक्सिकन अधिकारियों से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। एल यूनिवर्सल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने मेक्सिको सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मनी एक्सचेंज करने वाले भारतीय नागरिकों से 10,000 डॉलर लूट लिए। पुलिस ने कहा कि दो मोटरसाइकिलों पर चार बाइक सवार थे, जिन्होंने भारतीयों पर हमला किया और मौके से भाग गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनमें से एक की मौत गोली लगने से हो गई। सोमवार को एक्स पर दोबारा पोस्ट करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा कि वह दोषियों को पकड़ने के लिए मेक्सिको में कानून प्रवर्तन के साथ काम कर रहा है। इसमें कहा गया है, मेक्सिको सिटी में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारे गए एक भारतीय नागरिक की मौत के मामले में, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और मुक्त के परिवार को न्याय दिलाने के लिए दूतावास कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। मेक्सिको में भारतीय समुदाय छोटा है, उनकी संख्या लगभग 8,000 है, जिनमें से लगभग पांचवा हिस्सा मेक्सिको सिटी में है, और बाकी ग्वाडलाजारा, मॉन्टेरी, कुर्नवाका, क्वेरेटारो, केनकन में फैले हुए हैं। इनमें से अधिकांश हिस्सा टीएसएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी आईटी कंपनियों के लिए काम करने वाले आईटी पेशेवरों द्वारा बनाया गया है। अन्य में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी, शिक्षाविद और कुछ व्यवसायी शामिल हैं जो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और गारमेंट बिजनेस से जुड़े हैं।

कार्यालय, नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर
सैरात बंदोबस्ती आमंत्रण सूचना संख्या :- 04/2023-24
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक के लिए निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती खुली डाक द्वारा दिनांक 29.08.2023 को अप० 03.00 बजे से नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर के कार्यालय के सभागार में की जायेगी :-

क्र०	सैरातों का नाम	सरकारी डाक की राशि	प्रतिभूति की राशि
01	श्री बंशीधर नगर हाट/ बाजार सैरात की बंदोबस्ती	840000.00	840000.00

बोली/डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर द्वारा निर्गत आवेदन पत्र के साथ प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे, जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के पदनाम से बैंक ऑफ इण्डिया, नगर पंचायत में देय होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रतिभूति की राशि जमा करने वाले व्यक्ति को ही बंदोबस्ती में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
आवेदन पत्र एवं नियम शर्तों की विस्तृत जानकारी नगर प्रबंधक, नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। डाक की नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट, www.garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है।
प्रतिभूति राशि जमा करने का स्थान कार्यालय नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर
प्रतिभूति राशि जमा करने का तिथि एवं समय दिनांक 29.08.2023 (पूर्वा० 11.00 बजे से अप० 02.00 बजे तक)
डाक बोलने का स्थान कार्यालय नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर
डाक बोलने का तिथि एवं समय दिनांक 29.08.2023 (अप० 03.00 बजे से)
प्रशासक,
न०प०, श्री बंशीधर नगर।
PR.NO.305397 Rural Development(23-24):D

Office Nagar Parishad, Lohardaga
Notice Inviting Short Tender
e-Tender Reference No. LNP/ 09/2023-24 Date- 23-08-2023

S. No	Gr. No	Name of the Work	Approx Value of work (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Cost of Bid Document by DD (Rs.) (non refundable)	Period of completion
1	1	Construction of RCC drain with slab From Gulam house to Urdu middle school via bashir house (1315'), & Sakil house to Sonu house via firaj house (350'), & Construction of RCC culvert near Ursh maidan at W.N.-12	46,36,614.00	92,732.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
2	2	Construction of P.C.C. road from Jainathpur Akhra to Bhola Mahato house, Fuldeew oraoon house to Sikha house and Chandan Rajgariya house to Sager Mandel house in ward no 18	52,88,413.00	1,05,768.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
3	3	Construction of drain & Repairing of PCC Road from (1) Bagdu road Eidgah to Jubair ansari house via manir ansari house (drain= 1715', PCC= 980') (2) Emanuddin house to bashir house (drain= 530', PCC= 340'), (3) Gulam rasul house to Soyeb house (drain= 230', PCC= 295'), Islamnagar, Lohardaga at Ward NO- 11	54,17,916.00	1,08,358.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
4	4	Construction of RCC drain with slab From Sanjay sahu house to Usha kumari house (Kisko More 700') & Vinay agarwal house to Jayshil prasad house (Kisko more 530') W.N -06	31,01,608.00	62,032.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
5	5	Construction of RCC drain with slab from Koka Pan Dukan to Rinku house (Powergang Chowk) and Construction of drain & Repairing of PCC Road from (1) Tipu house to Dhoda toli road (2) Girwar Shishu sadan school to Naim khan house (Near Choti Masjid) at Ward NO- 03	29,28,355.00	58,567.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
6	6	Construction of RCC drain with slab from (1) Block more to Rajiv ranjan house (Block colony 1050') & Construction of PCC Road from Mahatam yadav house to arvind dubey house (block colony 150') & Repairing of PCC Road from (1) Pramod sahu house to anita devi house (250' block colony), (2) Prakash sharma house to arvind mishra house (400' block colony), (3) Laldev bhagat house to shashi badaik house (block colony 275') at W.N.-04	40,15,634.00	80,313.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
7	7	Construction of RCC drain with slab near Taj Banquet Grocery Shop to Shoe Mahal New Road, Whali jee house to Shashi Sahu house, Sayad Kalim house to Shakil Khan house and Sohail Medical Shop to Anu Battel Shop in ward no 13	41,47,153.00	82,943.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
8	8	Construction of drain & Repairing of PCC Road from (1) Surendra Say house to Shashi Badaik house & Anil Sinha house to Ramjee Sahu house, Block Colony (Drain= 1120', PCC= 1305'), (2) Ravi Sinha house to Master sahab house, Dhoratoli (drain= 150'), at Ward NO- 04	34,90,955.00	69,819.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
9	9	Construction of PCC road & RCC Drain from Budhu oraoon house to livelihood centre (Patratoli) at W.N.-05	43,58,945.00	87,179.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
10	10	Construction of P.C.C. road from Fulmani Toppo house to Irdan Ekka house via Gulsan Ekka house and Roshan Toppo house to Sanjay Rajak house via Ramchander Rajak house in ward no 23	27,91,631.00	55,833.00	10,000.00 + 18% GST	60 Days
11	12	Construction of RCC drain with slab From Barwatoli chowk to Radha Marble(Collage Road) at Ward no -19.&23	24,75,262.00	49,600.00	5,000.00 + 18% GST	60 Days
12	12	Construction of PCC Road near SDO Office under nagar parishad lohardaga at Ward NO- 06	24,74,472.00	49,500.00	5,000.00 + 18% GST	60 Days

Note: Updated estimated cost should be considered for earnest Money.

Sl. No.	Procurement Officer	date of tender publish on website	Last date for submission of tender fee and earnest money.	Availability of tender on line for bidding	Place, Date & time of opening bid.
A	B	C	D	E	F
1.	Executive officer Nagar Parishad, Lohardaga	28-08-2023 Time 10:30 AM	N.P. Lohardaga 12-09-2023 up to 3:00 P.M.	Bid downloading Date-28-08-2023 Time 11:00 A.M To Date 11-09-2023 Time 5:00 P.M.	Bid submission Date- 28-08-2023 Time 11:30 P.M To Date 11-09-2023 Time 5:00 P.M.

Further details can be seen on website <http://jharkhandtenders.gov.in> Administrator Nagar Parishad, Lohardaga
PR 305360 Lohardaga(23-24).D

प्रतिभा को मिले सम्मान

प्रतिभा किसी की मुहताज नहीं होती है। झारखंड के लाल अरविंदो सनगिरी ने सभी को अर्चित कर दिया है। अरविंदों ने एक हाई स्पीड ड्रोन बनाया है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से उड़ता है। इस ड्रोन को बनाने में 25-30 हजार रुपए खर्च आता है। इसका उपयोग ड्रोन रैसिंग के साथ-साथ फिल्मों में उपयोग किया जाता है। ग्रीन सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले जमशेदपुर शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के बच्चे हो युवा, अपनी प्रतिभा के बल पर देश-विदेश में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इन्हीं से एक है, मानगों के रहने वाले अरविंदो सनगिरी। उसने ऐसा ड्रोन बनाया है जो 200 किलोमीटर प्रतिघंटा के स्पीड से हवा में उड़ती है।



ग्रीन सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले जमशेदपुर शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के बच्चे हो युवा, अपनी प्रतिभा के बल पर देश-विदेश में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इन्हीं से एक है, मानगों के रहने वाले अरविंदो सनगिरी।



अरविंदों ने इस ड्रोन को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित भारत रत्न जेआरडी टाटा की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एयरो मॉडलिंग शो में प्रदर्शित किया है। सरकार को चाहिए कि ऐसी प्रतिभाओं को एक मंच मिले। इसके लिए समय-समय पर ऐसे लोगों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल अरविंदो ने बताया कि हवाई जहाज का मॉडल बनाने शौक उसे बचपन से था। लेकिन 2011 से उसने इसे मूर्त रूप दिया। उसने बताया कि इस दौरान उसने कई हवाई जहाज का मॉडल बनाया। उसके बाद उसने ड्रोन पर काम करना शुरू किया और अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ने वाले ड्रोन को बनाने में सफलता हासिल की। इस ड्रोन को चलाने के लिए विशेष प्रकार का चरमा से बनाया गया है। ताकि उतने स्पीड से ड्रोन चलाने में कोई परेशानी ना हो। अरविंदों के अनुसार ड्रोन में विशेष प्रकार का लेंस लगाया जाता है। उस लेंस का कनेक्शन चरमा से रहता है। उसी के माध्यम 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला ड्रोन में नियंत्रित किया जाता है। अरविंदों के अनुसार इस ड्रोन को बनाने में 25 हजार से 30 हजार रुपया लागत आती है। उसने बताया कि ड्रोन बनाने के कुछ समान लोकल बाजार से उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि कुछ सामान ऑनलाइन या कोलकाता बाजार से मंगाया पड़ता है। उसने यह भी बताया कि अगर सामान सही ढंग से मिल जाए तो वह एक दिन में ड्रोन तैयार कर लेगा। ड्रोन का उपयोग विशेषकर फिल्मों या कार या बाइक रेसिंग में किया जाता है। इस ड्रोन के माध्यम से जब रेसिंग हो रही हो तो रेस में भाग लेने वालों पर नजर रखा जाता है। इसी तरह फिल्मों में भी इस ड्रोन का उपयोग किया जाता है। आने वाले दिनों में ऐसी प्रतिभाओं को अगर मुकाम सरकार के द्वारा मिल जाये तो निश्चित रूप से झारखंड का नाम पूरी दुनिया में होगा। बस जरूरत है इन्हें सम्मान देने की। यह देखा गया है कि अपने राज्य में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसके लिए ऐसी प्रतिभाओं के मनोबल को उंचा उठाने की जरूरत है। यह तभी संभव होगा जब सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान मिले। आज यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के मदान में अपनी जलवा बिखेरने वाली कई प्रतिभायें आज असमय दम तोड़ रही हैं। बस जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन देकर उनके मनोबल को आगे बढ़ाया जाये।

शिक्षा मंत्रालय स्कूली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रयोगों से परिचित करा कर उन्हें अनुसंधान और खोज का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रयास' यानी 'प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एन्सपायरिंग स्टूडेंट्स' योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना का मकसद युवा विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना और साक्ष्य आधारित विज्ञान, प्रक्रिया, नवीनता और रचनात्मकता का विकास करना है। छात्रों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को खुला आकाश देने का यह 'प्रयास' सार्थक है। इससे भारत की स्कूली शिक्षा में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और इससे शिक्षा की अपूर्णताएं दूर हो सकेंगी। किसी भी बच्चे के भीतर रचनात्मकता, कौशल, मौलिकता एवं कार्य-क्षमता की असीमित संभावनाएं होती हैं। अगर उसे एक सीमित ढांचे के भीतर समेट दिया गया है तो उसकी प्रतिभा भी उसी दायरे में सिमट कर रह जाती है। इसलिए बचपन और किशोरावस्था में ही रुचियों की पहचान करके अगर किसी बच्चे को उसकी रुचि के क्षेत्र को जानने-समझने और कुछ करने का अवसर दिया जाय तो पूरी संभावनाएं है कि भारी तादाद में बच्चों की प्रतिभा सामने आयेगी और उसका लाभ देश और समाज को मिलेगा। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में यह एक बुनियादी पक्ष होना चाहिए और कुछ हद तक इसका खयाल रखा भी गया है, मगर अब सरकार औपचारिक रूप से इस दिशा में एक ठोस पहल करने जा रही है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। पर यह भी सच है कि हम जितना खुद की क्षमताओं के बारे में सोच रहे होते हैं, उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। कितनी ही बार हम केवल यही सोच कर पीछे हट जाते हैं कि हम से नहीं होगा। हमसे जो कम है, वे आगे बढ़ जाते हैं और हम एक कदम नहीं बढ़ा पाते। यह स्थिति विद्यार्थी जीवन की एक त्रासदी है, विडम्बना है। अब तक की शिक्षा इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की

बच्चों की रचनात्मकता को आकाश देने का 'प्रयास'



प्रक्रिया काफी तीक्ष्ण होती है। खासकर अगर पढ़ाई-लिखाई के दौरान उनकी रुचि के विषय को निर्बाध तरीके से विकसित होने दिया जाए तो उनकी रचनात्मकता अक्सर कुछ नया खोज लाती है। लेकिन हमारे यहां निर्धारित पाठ्यक्रम ज्यादातर बच्चों के लिए शिक्षण के ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। कितनी ही बार हम केवल यही सोच कर पीछे हट जाते हैं कि हम से नहीं होगा। हमसे जो कम है, वे आगे बढ़ जाते हैं और हम एक कदम नहीं बढ़ा पाते। यह स्थिति विद्यार्थी जीवन की एक त्रासदी है, विडम्बना है। अब तक की शिक्षा इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की

छात्रों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को खुला आकाश देने का यह 'प्रयास' सार्थक है। इससे भारत की स्कूली शिक्षा में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और इससे शिक्षा की अपूर्णताएं दूर हो सकेंगी।



इन दिनों

अपनी पसंद के विषय में कुछ नया समझने और सीखने के प्रति हताशाहित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने प्रयास योजना 2023-24 के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया है। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 से होगी। 'प्रयास' के दिशा-निर्देश के अनुसार, इसका मकसद युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना, उनकी वास्तविक क्षमता,



ललित गर्ग

और उनका आकलन करने के बाद यह तथ्य बार-बार सामने आता रहा है कि अब शिक्षा को कोई नया रूप देना चाहिए। शिक्षा की अपूर्णता एवं अपर्याप्तता को दूर करने के लिये यह एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। प्रयास ऐसी ही अपेक्षा को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। अक्सर स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का एक तरह से दमन हो जाता है। जो बच्चे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज के वाहक बन सकते हैं, वे एक बने-बनाये ढर्रे के अनुगामी बने रह जाते हैं। इस लिहाज से देखें तो 'प्रयास' की अहमियत इस रूप में दर्ज की जा सकती है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में अनुसंधान या खोज करने के लिए विद्यार्थियों की क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। दरअसल, बच्चे सबसे ज्यादा अपने आसपास के वातावरण को देख-समझ कर सीखते हैं। इसीलिये प्रयास योजना के अनुसार, इसमें किसी स्थानीय समस्या की पहचान कर उसका अध्ययन किया जायेगा। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की जांच करने एवं हल खोजने तथा किसी विचार, कल्पना या अवधारणा पर शोध करने पर जोर दिया गया है। जेन मास्टर मैरी जैकश कहती हैं, 'अपनी उलझनों का सामना करते हुए अनजान चीजों को गले लगाया हमें विकास की ओर ले जाता है। हमें आगे बढ़ना है।' 'प्रयास' के अंतर्गत स्कूली छात्रों और शिक्षकों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के एक विशेषज्ञ की सहायता से किसी स्थानीय समस्या का हल करना या अनुसंधान आधारित समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा। इसमें भाग लेने वाले शिक्षार्थियों की आयु 14-18 वर्ष होगी।

बोधि वृक्ष

आइये सुने कथा कृष्ण भक्त मीरा की

यहां तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटा का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया जब मीरा उस पर सोने चलीं। जब यातनाएं बरदाश्त से बाहर हो गईं, तो उन्होंने चितोड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गईं, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कुरुण-भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थीं कि वह गोपी ललिता ही हैं, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थीं। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी, वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती-गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं।

मीरा के लिए कृष्ण भ्रम नहीं हकीकत थे : 'इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई इसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए, लड़कियां पहले जोसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण, शरीर, मन और भावनाओं के परे, एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया, जो बिलकुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था।

(कमराशः)

राजनीतिक शिखर पर सुप्रिया श्रीनेत

आजकल टीवी डिबेट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने प्रतिद्वंद्वी प्रवक्ताओं को अग्रे से धोती हुई खूब नजर आती हैं। टीवी पर कांग्रेस को इसलिए भी लोग खूब सुना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत होती हैं। बता दें कि राजनीति में कदम रखने से पहले वे भारत सहित देश विदेश की सफलतम पत्रकार भी रही हैं। मौजूदा हाल में वे कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन हैं। हाल ही उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमिटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। देखा जाए तो वे एक मात्र ऐसी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं के छत्रके छुड़ा रही हैं। कांग्रेस हाईकमान के अति आवश्यक मीटिंगों में वे राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अक्सर नजर आती रहती हैं। सुप्रिया श्रीनेत का पत्रिक आवास यूपी के महाराजगंज जिले के फरेन्दा विधानसभा क्षेत्र के गांव जोगिया बारी है लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है। मां श्रीमती विष्णु सिंह इन्हें डाक्टर बनाया चाहती थीं इसलिए इन्होंने नीट की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली लेकिन डाक्टर की पढ़ाई नहीं की, वे पत्रकार बन गईं जिसमें भी ऊंचाइयां हासिल की। राजनीति में आज सुप्रिया श्रीनेत ऐसा नाम है जिसे इतने कम समय में इतनी ऊंची राजनीतिक मुकाम हासिल हुआ हो। राजनीति उनके रंग रंग में है। उनके दादा जी योगेन्द्र पाल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पिता स्व.हर्षवर्धन पूर्वी यूपी के जाने माने राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत लखनऊ युनिवर्सिटी से छत्र राजनीति से की थी। वे समाजवादी विचारधारा के थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जमींदार की थी लेकिन वे सर्वहारा

सामंत थे। हर्षवर्धन जी के पिता स्व योगेन्द्र पाल सिंह जमींदार परिवार से भले थे, वे जीवन पर्यन्त गरीबों मजदूरों के लिए लड़ते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के तमाम प्रलोभनों को लात मार दिये और उनके खिलाफ किसी भी आंदोलन में जान जोखिम में डालकर संदेव अग्रणी भूमिका में रहे। गरीबों और मजदूरों के प्रति दया भाव ऐसी थी कि वे खेतों में खुद ही हल संभाल लेते ताकि मजदूर कुछ फल विश्राम कर सके। ऐसे संघर्ष शील और करुणामयी पिता के पुत्र स्व.हर्षवर्धन जीवन प्रयंत अपने पिता के कदमों पर ही चलते रहे। उन्होंने जाने माने मजदूर नेता जार्ज फर्नांडिस के सानिध्य में अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया। लंबे संघर्षों के बाद 1985 में वे महाराजगंज जिले के फरेन्दा विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गये। उसके बाद 1989 में जनता दल से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गये। 1999 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। यद्यपि कि यह चुनाव वे हार गये थे लेकिन इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का सूखापन समाप्त करने में कामयाब हुए। मतलब 1985 के बाद से कांग्रेस का उम्मीदवार यहां 20--25 हजार वोट ही पाता रहा। लंबे अरसे बाद बतौर कांग्रेस उम्मीदवार हर्षवर्धन को यहां डेढ़ लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। वोटों की इस बढ़त से सोनिया गांधी भी प्रसन्न हुई थीं। हार के बाद भी उन्होंने हर्षवर्धन की पीठ थपथपाई थीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में अंततः हर्षवर्धन ने भारी अंतर से जीत हासिल की। वे दूसरी बार सांसद पहुंचे। 2014 का चुनाव




यशोदा श्रीवास्तव

राजनीति में आज सुप्रिया श्रीनेत ऐसा नाम है जिसे इतने कम समय में इतनी ऊंची राजनीतिक मुकाम हासिल हुआ हो। राजनीति उनके रंग रंग में है। उनके दादा जी योगेन्द्र पाल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।



राजनीति

आते आते हर्षवर्धन की स्वास्थ्य संकट से गुजरना पड़ा। वे चुनाव हार गये और गंभीर बीमारी के चलते 2017 में उनका निधन हो गया। हर्षवर्धन के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत में कांग्रेस का भविष्य तलाश ली। सुप्रिया भी पत्रकारिता छोड़ कर अपने पिता की विरासत संभालने महाराजगंज आ गईं। पिता हर्षवर्धन की इस बढ़त से सोनिया गांधी तरह टूट गई थीं क्योंकि एक बाद एक उनके अपने असमय ही साथ छोड़ते गये। पिता के निधन के पहले ही वे उनके इकलौते भाई राज्यवर्धन सिंह की मात्र 40 साल की उम्र में निधन हो गया।



लोग बहुत अच्छे होते है

अगर हमार वक्त अच्छा हो तो।

भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा

वैश्विक स्तर पर दुनिया के हर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक विशिष्ट द्राष्ट प्रान हो जाता है। यहां भारत की उपस्थिति से उस मंच पर एक अद्भुत वज्रन आ जाता है और सम्मेलन में चार चांद लग जाते हैं। यही कारण है कि हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पूछ परख होती है बड़े-बड़े नेताओं की निगाहें भारतीय पीएम को ढूँढती नजर आती है जैसे हमने टीवी चैनलों पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के राष्ट्र प्रमुखों द्वारा ऑटोग्राफ बॉस इत्यादि संबोधनों से देख चुके हैं। अब दिनांक 22-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसके लिए माननीय पीएम 22 अगस्त 2023 को सुबह रवाना हुए थे, चूंकि भारत की यह पौराणिक प्रवृत्ति रही है कि दलित दिमाग में भारत के विकास की गाथाओं में नये नये अध्याय जोड़ने की सोच हमेशा समाई रहती है इसलिए हम हिंदुस्तानियों को उम्मीद है, जोहानेसबर्ग में भी हम हमें मिलेगा जिस के सहयोग से विश्व मानवीय कल्याण के कामों को आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्व गुरु बनायेंगे। ब्रिक्स के विस्तार की पुरजोर कोशिशें की जा रही है जिसमें चीन अपने समर्थकों पाकिस्तान ईरान इत्यादि देशों को शामिल करना चाहता है, वही भारत भी इस पक्ष में है कि कुछ देशों को जोड़ा जाय, जिसमें 23 देशों के नामांकन प्राप्त हुए हैं वही दूसरी ओर विश्व में अमेरिका और नाटो देशों की पहली पसंद भारत होते जा रहा है। बता दें व्हाइट हाउस से जानकारी जारी हो गई है कि 7-10 सितंबर 2023 को अमेरिकन राष्ट्रपति भारत जी-20 की सभा में शामिल होने भारत आ रहे हैं वही चंद्रयान-3 की अंतरिक्ष के दक्षिणी

ध्रुव पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 शाम 6.04 पर करीब करीब सफलता से होना निश्चित है और ब्रिक्स बिजनेस फोरम में जिस तरह 23 अगस्त 2023 को देर रात्रि अपने संबोधन में भारत में आर्थिक क्षेत्र की हुंकार पूरी और भारत को जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था में आने और विश्व का ग्रोथ इंजन बनने तेजी से बढ़ने की बात कही है। पीएम 23 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन 2 सत्र में होगा। 24 अगस्त को पीएम मोदी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस दौर के दौरान दक्षिण अफ्रीका में पीएम कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। चूंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के रुतबे को हम टीवी चैनल पर लाइव देख रहे हैं इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-25 अगस्त 2023 के बिजनेस फोरम में भारत का आगाज। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम के 22 अगस्त 2023 के देर रात्रि बिजनेस फोरम में संबोधन की करें तो, ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ब्रिक्स देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया है।



किशन भावनानी गोदिया

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा।



देश दुनिया

पीएम ने आगे कहा कि भारत में जीएसटी और इन्फ्लेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू होने के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र अब ड्राइवेट सेक्टरों के लिए खोले गये हैं। हमने टेक्नोलॉजी के यूज के साथ वित्तीय समावेशन में एक उल्लंगन लगाया है। देश में आज स्ट्रैट वेंडर से लेकर शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है। हम भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं।

हमारे देश भारत में कई ऐसी धार्मिक जगहें हैं, जिनका अपना महत्व है। बता दें कि गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी माता का मंदिर मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहां पर श्रीचक्र की पूजा की जाती है। हमारे देश भारत में कई ऐसी धार्मिक जगहें हैं, जिनका अपना महत्व है। बता दें कि गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी माता का मंदिर मौजूद है। यह इकलौता ऐसा मंदिर है, जहां पर कोई मूर्ति मौजूद नहीं है। इस मंदिर में मुख्य रूप से श्री चक्र की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार, श्रीयंत्र सामान्य आंखों से नजर नहीं आता है। इसलिए इस श्रीयंत्र की पूजा सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर की जाती है। इसके अलावा इस मंदिर में तस्वीर लेना निषेध माना जाता है।

मंदिर की पौराणिक मान्यता

बता दें कि गुजरात के बनासकांठा में स्थित यह मंदिर नौ देवियों में से एक अंबा देवी को समर्पित है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब राजा दक्ष द्वारा भगवान भोलोनाथ का अपमान किया गया। तब

गुजरात का अनोखा मंदिर जहां पर नहीं है कोई मूर्ति...

माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जिसके बाद भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव शरीर को यज्ञकुंड से बाहर निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर इधर-उधर घूमने लगे थे। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा तो जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु ने माता सती की पार्थिव शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। इसके बाद माता सती के पार्थिव शरीर के वह टुकड़े जहां-जहां गिरे। वह सभी स्थान शक्तिपीठ कहलाए। गुजरात के बनासकांठा में माता सती का हृदय गिरा था इसलिए यह

मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। भक्तों का लगता है तांता

माता के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु अंबाजी मंदिर पहुंचते हैं। खासतौर पर मंदिर में भद्रवी पूर्णिमा, नवरात्रि और दिवाली के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यहां पर आपको वेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजार भी देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के आसपास कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां पर सेलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। यह स्थान अरावली पर्वतमाला



के घने जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप मंदिर में दर्शन करने के बाद गम्बर हिल, कैलाश टेकरा, कुंभारिया आदि जैसे दर्शनीय स्थल भी जा सकते हैं। - अनन्या मिश्रा

ज्वाइंट पेन से हो चुके हैं परेशान तो अपनाये ये घरेलू नुस्खा

वर्तमान समय में गलत खानपान और अनेहलेदी लाइफस्टाइल के कारण लोगों को कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द परेशान करने लगा है। हालांकि अपनी डाइट में बदलाव कर ज्वाइंट पेन की समस्या से राहत पाई जा सकती है। साथ ही इसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आप ज्वाइंट के दर्द से परेशान हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक ऐसे खास मिश्रण के बारे में बताते जा रहे हैं। जिसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद मिल सकती है।

जोड़ों के दर्द को दूर करने वाले मिश्रण की सामग्री



- मखाना- 1/2 कटोरी
- धुने हुए चने- 1/2 कटोरी
- सौंठ- 1/2 टीस्पून
- अजवाइन- 1 टीस्पून
- दालचीनी- 1/2 टीस्पून
- सूखा खजूर- 5
- मिश्री- 1/4 कटोरी
- इस सभी चीजों के ग्राइंडर कर

महीन पाउडर बना लें। फिर 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाएं। इसके बाद रोजाना दिन में एक बार इसका सेवन करें।

जोड़ों के दर्द से निजात पाने का घरेलू नुस्खा

मखाना शरीर में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही आस्टियो आर्थराइटिस के लक्षणों को भी कम करता है। बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पायी जाती है। यह ज्वाइंट्स के इन्फ्लेमेशन को मजबूत करने के साथ ज्वाइंट के दर्द में राहत देता है। धुने हुए चने में विटामिन-के पाया जाता है। यह शरीर को कैल्शियम

प्रदान करने के साथ जोड़ों के दर्द में भी आराम देता है। सूखे हुए खजूर में विटामिन सी और विटामिन डी की भरपूर मात्रा पायी जाती है। इसके सेवन से कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होता है और ज्वाइंट में लचीलापन आता है। अजवाइन में विटामिन-के की प्रचुर मात्रा पायी जाती है। यह मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और जोड़ों का दर्द और सूजन खत्म करता है। दालचीनी में सिनेमिक एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से जोड़ों के दर्द और इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। मिश्री डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने में सहायक होती है। इससे गैस की समस्या नहीं होती और पाचन में सुधार होता है। सौंठ में एंटी-इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाया जाता है, यह ज्वाइंट में होने वाली एंठन को कम करती है।

स्वस्थ और सेहतमंद बने रहने के लिए डाइजेशन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डाइजेशन सही न होने पर हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है और वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है। इस आयुर्वेदिक चाय को पीने से आपको गैस और ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिलेगी। स्वस्थ और सेहतमंद बने रहने के लिए डाइजेशन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि डाइजेशन सही न होने पर हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। जब खाना सही से नहीं पच पाता है, तो शरीर को खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। इससे शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। डाइजेशन सही न होने पर हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है और वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है। खासकर, मानसून में आपका डाइजेशन सिस्टम ज्यादा कमजोर हो सकता है। बारिश के मौसम में अधिकतर लोगों को अपच, गैस और ब्लोटिंग की समस्या परेशान हो जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक चाय का सेवन कर सकते हैं।

क्यों होती है पेट से जुड़ी दिक्कतें

बारिश के मौसम में पेट संबंधी समस्या होना आम बात है। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि बारिश में बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा सक्रिय रहते हैं। या फिर आप कोई गलत डाइट लेते हैं, या आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आपका पाचन गड़बड़ हो सकता है। अक्सर लोग स्वाद के चक्कर में बाहर का खाना या ज्यादा तला-भुना खा लेते हैं। ऐसे में ब्लोटिंग या गैस की समस्या होती है।

आयुर्वेदिक चाय पियें

ऐसे में अगर आप भी मानसून में डाइजेशन से जुड़ी

बरसाती बीमारियों से बचने के लिए पियें आयुर्वेदिक चाय



समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेदिक चाय का सेवन करना चाहिए। इस चाय के सेवन से पेट में एंठन, ब्लोटिंग, भारीपन और गैस की समस्या से निजात मिल सकती है।

आयुर्वेदिक चाय की सामग्री

होंग- 1/4 टीस्पून (घी में भुनी हुई)

सेंधा नमक-1/4 टीस्पून

जीरा पाउडर- 1/2 टीस्पून

पानी- 300 मि.ली. लगभग

ऐसे बनाएं

सबसे पहले पानी में सभी चीजों को मिला लें। फिर इस पानी को 5 मिनट तक पानी में उबालें। इसके बाद इसे छाने बिना ही पियें। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम में सुधार होगा। गैस और ब्लोटिंग की समस्या दूर होगी।

वेज खाना, पूरी नींद, कसरत व सोशल लाइफ आपको लंबे समय तक जिन्दा रखेगा

कम नमक और चीनी के साथ वेज खाना, पर्याप्त आराम, थोड़ी कसरत और सोशल लाइफ मृत्यु का जोखिम 28 प्रतिशत और कैंसर का जोखिम 29 प्रतिशत कम करता है। एक नए शोध में ये पाया गया है।

यूके में जो लोग भूमध्यसागरीय जीवनशैली यानि मेडिटरेनियन लाइफस्टाइल का पालन करते हैं, उनमें सभी कारणों और कैंसर से मृत्यु दर का जोखिम कम पाया गया। शोधकर्ताओं ने यूके बायोबैंक समूह के 110,799 सदस्यों की आदतों का विश्लेषण किया, जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में भूमध्यसागरीय जीवन शैली (मेडलाइफ) का उपयोग करते हैं।

शोध लिखने वाले प्रमुख लेखक मर्सिडीज सोतोस प्रीतो ने कहा, मैड्रिड के स्वायत्त विश्वविद्यालय (एयूएम) और हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अध्ययन में सुझाव है कि गैर-भूमध्यसागरीय आबादी के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों का उपयोग कर भूमध्यसागरीय आहार को अपनाना संभव है।

हार्वर्ड चैन स्कूल में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के सहायक प्रोफेसर प्रीतो ने कहा, हम जीवनशैली में परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। अध्ययन में प्रतिभागियों की उम्र 40 से 75



वर्ष के बीच थी। उन्होंने सूचकांक द्वारा मापी गई तीन श्रेणियों के अनुसार अपनी जीवनशैली के बारे में जानकारी प्रदान की - भूमध्यसागरीय भोजन की खपत; भूमध्यसागरीय आहार संबंधी आदतें और 'शारीरिक गतिविधि, आराम, और सोशल लाइफ'। अध्ययन में शामिल लोगों में से, 4,247 का किसी न किसी बीमारी से निधन हो गया; 2,401 कैंसर से; और 731 हृदय रोग से मारे गए।

शोधकर्ताओं ने भूमध्यसागरीय लाइफस्टाइल के पालन और मृत्यु दर के जोखिम के बीच एक विपरीत संबंध देखा। भूमध्यसागरीय लाइफस्टाइल का स्वतंत्र रूप से पालन सभी कारणों और कैंसर मृत्यु दर के जोखिम को कम करने से जुड़ा था। शोधकर्ताओं ने कहा, 'शारीरिक गतिविधि, आराम, और सोशल लाइफ' कम जोखिम सबसे मजबूती से जुड़ा हुआ था, और इसके अलावा हृदय रोग मृत्यु दर का जोखिम भी कम था।

सूडोकु नवताल- 6801		****	
	4		3
	6	2	4
	8		5
3			7
7		4	
9			5
	2		1
	1	7	6
5		3	

सूडोकु नवताल-6800 का हल

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।

■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

■ पहली का केवल एक ही हल है।

दैनिक पंचांग

24 अगस्त 2023 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

गुरुवार 2023 वर्ष का 236 वां दिन

दिशाशूल दक्षिण ऋतु वर्षा।

विक्रम संवत् 2080 शक संवत् 1945

मास श्रावण पक्ष शुक्ल

तिथि अष्टमी 03.11 बजे रात्र को समाप्त।

नक्षत्र विशाखा 09.04 बजे को समाप्त।

योग इन्द्र 20.36 बजे को समाप्त।

करण विष्टि 15.27 बजे तदनन्तर बव 03.11 बजे रात्र को समाप्त।

चन्द्रायु 07.6 घण्टे

रवि क्रान्ति उत्तर 11° 16'

सूर्य उत्तरायन

कलि अहर्गण 1871715

जूलियन दिन 2460180.5

कलियुग संवत् 5125

कल्पांशु संवत् 1972949123

सृष्टि ग्रहार्थ संवत् 1955885123

वीरनिर्वाण संवत् 2549

हिजरी सन् 1445

महीना सफर तारीख 07

विशेष दुर्गाष्टमी व्रत।

दिन का चौघड़िया	रात का चौघड़िया
शुभ 05.54 से 07.22 बजे तक	अमृत 05.40 से 07.11 बजे तक
रोग 07.22 से 08.51 बजे तक	चर 07.11 से 08.43 बजे तक
उद्वेग 08.51 से 10.19 बजे तक	रोग 08.43 से 10.15 बजे तक
चर 10.19 से 11.47 बजे तक	काल 10.15 से 11.47 बजे तक
लाभ 11.47 से 01.15 बजे तक	लाभ 11.47 से 01.19 बजे तक
अमृत 01.15 से 02.43 बजे तक	उद्वेग 01.19 से 02.51 बजे तक
काल 02.43 से 04.11 बजे तक	शुभ 02.51 से 04.23 बजे तक
शुभ 04.11 से 05.40 बजे तक	अमृत 04.23 से 05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभलाशुभ, शुभ व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें।

शब्द पहेली - 7863

1	2	3	4
	5	6	7
8	9	10	
11	12	13	14
15		16	
17		18	19
	20		22
	23		24
25		26	

बाएँ से दाएँ

1. ओस की बूंदे (उर्दू-4)
3. आसमान, गगन-3
5. निम्न, जो स्तरीय न हो-4
8. रात्रि, निशा-2
10. सिलना, छाती
11. नश, नाड़ी-2
13. एक समाज सुधारक जिनके दोहे काफी प्रसिद्ध हैं-2
15. इसे आंखों में लगाते हैं-3
16. प्रभाव-3
17. समीप, पास, नजदीक-3
19. भगवान, खुदा-2
20. जानवर इसे खाते हैं-2
21. होठ, अधर-2
23. लूटपाट, डाका-4
25. प्रकार-3
26. वेबस, लाचार-4

ऊपर से नीचे

1. चिंगारी, अंगारा-3
2. मस्ती में चूर-2
3. इज्जत, साख-2
4. तलवार (उर्दू-4)
6. रसदार, रस से भरा-3
7. मेहंदी, ऋषि कपूर की फिल्म-2
9. सच्ची, भाजी-4
13. कर्मी-3
14. अकबर के एक हिंदू सलाहकार-4
17. अचरज भरा कार्य-4
18. वायुसेना के एक विमान का नाम-3
20. चाहत, प्रेम-2

शब्द पहेली - 7862 का हल

ब	र	ग	द	ख
द	भ	कि	फा	व
अ	ना	प	कि	रा
अ	र	जा	ये	त
प्र	स	ग	झ	दा
व्या	ज	क	र	स
ने	ज	भा	त	अ
प	न	पा	जा	वी
आ	अ	र	भा	व

आज का राशिफल

मेघ राशि : आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। शने-शने: स्थिति पक्ष की बनने लगेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा।

वृष राशि : स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुपक्ष पर आप हावी रहेंगे।

सिंह राशि : स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे।

धनु राशि : धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होंगी। रुका हुआ लाभ प्राप्त हो सकता है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे।

मिथुन राशि : कार्यात्मक से पहले उचित मूल्यांकन कर लें। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा।

कन्या राशि : आवेश में आना आपके हित में नहीं होगा, इसलिए व्यवहार व वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी। हाथ-पैरों में पीड़ा हो सकती है।

मकर राशि : किसी से कहासुनी न हो यही ध्यान रहे। लाभकारी गतिविधियों में सक्रियता रहेगी। कुछ एकाग्रता की प्रवृत्ति बनेगी। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी।

कर्क राशि : आध्यात्मिक रुचि बनेगी। प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य बनते नजर आएंगे। मनोरथ सिद्धि का योग है। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे।

वृश्चिक राशि : मनोविनोद बढ़ेंगे। व्याधिबन्ध का अवसर आ सकता है। शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। कामकाज की अधिकता रहेगी।

मीन राशि : ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में रुकावट का एहसास होगा।

KASHYAP'S DENTAL CLINIC



Dr. Vaibhav Kashyap

Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA

"Smiles & More"

छात्र-छात्राओं के लिए
50% की छूट



Facilities

- ❖ आरसीटी
- ❖ पायरिया का ईलाज
- ❖ टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
- ❖ स्माईल डिजाइन
- ❖ इनविजिवल क्लिप
- ❖ दंत रोपण
- ❖ फिक्स दाँत लगाना
- ❖ अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

CHAMBER

SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi
Contact No. : 9199533383, 7903835453
Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm
Sunday : 9 am to 2 pm
E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

ब्रिक्स देश अंतरिक्ष खोज की दिशा में करें मिलकर प्रयास : पीएम मोदी

एजेंसी। नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स संगठन को और कारगर बनाने के लिए अंतरिक्ष खोज, डिजिटल आधारित शिक्षा, कौशल विकास, परंपरागत औषधि और बाघ-चीता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के पांच सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र में अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स देश अंतरिक्ष क्षेत्र में पहले से सहयोग कर रहे हैं। उपग्रह सहयोग से आगे बढ़ते हुए अब ब्रिक्स देश अंतरिक्ष क्षेत्र के अधिकार और जनता तक विभिन्न सुविधाएँ पहुंचाने के लिए भारत के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने वैकसीन के अधिकार और जनता तक विभिन्न सुविधाएँ पहुंचाने के लिए बनाए गए तंत्र को भी साझा उपयोग के लिए पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता भारत के एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी भी समस्या का हल इस विविधता के बीच से ही उभर



कर सामने आता है। इसलिए भारत के अनुभवों को दुनिया के किसी भी देश में सरलता से अपनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सदस्य देशों की क्षमताओं और योग्यताओं को पहचान कर उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके जरिए एक दूसरे की विकास यात्रा में सहयोगी बन सकते हैं। मोदी ने चौथा सुझाव शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि के संरक्षण के बारे में दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समूह के पाँचों देशों में बिग कैट्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन के जरिए वन्यजीवों के संरक्षण के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरिल रामाफोसा ने बाद में मोदी के इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्रीजी आप चीतों के देश में आए हैं, हमने आपको चीते दिए हैं, वहाँ उनको देखना हो रही है

और हम आपको आगे भी चीते भेजने के लिए तैयार हैं। उपस्थित नेताओं और प्रतिनिधियों ने रामाफोसा के इस कथन का करतल ध्वनि से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम और पांचवा सुझाव परंपरागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में परंपरागत औषधियों का प्रचलन रहा है और हमें इन औषधियों एक साझा पूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन का आदर्श वाक्य है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य देश इसका स्वागत और समर्थन करेंगे।

मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 की मौत



एजेंसी। आइजोल
मिजोरम के सैरांग इलाके के पास एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से बुधवार को कम से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेलवे और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। दुर्घटनास्थल पर कई अन्य श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। बुधवार सुबह जब दुर्घटना हुई तब लगभग 40 मजदूर वहाँ मौजूद थे। कुरुंग नदी पर वैराबी को सैरांग से जोड़ने वाला रेलवे पुल निर्माणाधीन था। दुर्घटनास्थल आइजोल से करीब 21 किमी दूर है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।

पीएम मोदी ने 17 लोगों की मौत पर शोक जताया
मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की।

रेल मंत्रालय ने किया पुल हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान

रेल मंत्रालय ने बुधवार को मिजोरम में निर्माणाधीन रेल पुल हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मंत्रालय ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के लिए दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया है।

सीएम हेमंत सोरेन ने मिजोरम रेलवे पुल हादसे पर जताया दुःख

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से हुई जनहानि पर दुःख जताया है। उन्होंने कहा कि मिजोरम के सैरांग में निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से 17 श्रमिकों की मृत्यु की दुःखद खबर मिली। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की यह चढ़ी सहन करने की शक्ति दें।

राहुल और प्रियंका ने निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से हुई मौतों पर जताया शोक

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।

NEWS इन ब्रीफ

सचिन तेंदुलकर बने चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन
नई दिल्ली। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बनाए गए हैं। तेंदुलकर और आयोग के बीच बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तीन साल के समझौते के तहत तेंदुलकर मतदाताओं को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाएंगे। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चन्द्र पांडेय और अरुण गोयल की उपस्थिति में करार पर हस्ताक्षर किए गए।

हेट स्पीच केस में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से हेट स्पीच केस में एसपी के कद्दावर नेता आजम खान को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी से जुड़े मामले में वॉयस सैंपल देने के निचली अदालत के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आजम खान की याचिका पर नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

राकांपा को तोड़ने की कोशिश पहले भी कई बार हुई थी : सुले

आरएनएम। नई दिल्ली
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि राकांपा को तोड़ने की कोशिश पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार भाजपा ने ज्यादा गहरी साजिश रची और पार्टी में तोड़फोड़ के मंसूबे में कामयाब हो गई। उनका कहना है कि वो नहीं कह सकती कि अजित पवार इस बार फिर से वापस लौट आएंगे। लेकिन लोकतंत्र में हर एक को अपनी तरह से राजनीति करने का

हक है। हम परिवार को एक रखने की कोशिश में हैं। सुले ने एक अग्रणी अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भाजपा ने पहले दो बार राकांपा को तोड़ने की कोशिश की थी। वो कामयाब नहीं हो सकी तो तीसरी बार कहीं ज्यादा सटीक रणनीति तैयार की। इस बार उनका तीर निशाने पर लगा और पार्टी दो फाड़ हो गई। सुप्रिया सुले का कहना है कि अजित पवार ने जो कुछ किया वो उनको सही लगता है। लेकिन वो मानती हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई को और

मजबूत करना होगा। सुले का कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा के 106 विधायक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन जिस तरह से बाहर के नेताओं को भाजपा अपने खेमे में शामिल कर रही है उससे इन विधायकों को बुरा लग रहा होगा। उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस होता। उनका कहना है कि वो राजनीति को कारोबार नहीं मानती कि यहाँ नौकरी अच्छी नहीं लगी तो दूसरी जगह जाकर कर ली। उनके लिए राजनीति एक विचारधारा है।

आज का युवा विकसित भारत का निर्माण करेगा : राष्ट्रपति

एजेंसी। नई दिल्ली
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आज का युवा ही सकल्प काल में विकसित भारत का निर्माण करेगा। राष्ट्रपति बुधवार को गोवा में गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार आज की दुनिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गोवा विश्वविद्यालय नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे



क्षेत्रों में विश्व स्तरीय क्षमता विकसित करना आवश्यक है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गोवा विश्वविद्यालय, गोवा सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय के सहयोग से 'समग्र शिक्षण और वर्चुअल ओरिएण्टेशन के लिए डिजिटल

इंटीग्रेटेड सिस्टम' कार्यक्रम चला रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न विभागों को एकीकृत करके अंतःविषय अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्कूल बनाए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाकर सीपियों और मशरूम की खेती की जा रही है। उन्होंने छात्रों में सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संतुलन के बारे में संवेदनशीलता पैदा करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय की टीम की सराहना की।

उपलब्धि एलसीए तेजस से पहली बार हवा से हवा में दागी गई एस्ट्रा मिसाइल

लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम

देश के पश्चिमी तट पर हुआ स्वदेशी मिसाइल एस्ट्रा एमके-1 का परीक्षण
एजेंसी। नई दिल्ली
भारत ने बुधवार को 'मेड इन इंडिया' जेट के साथ 'मेड इन इंडिया' मिसाइल दागकर एयरस्पेस की दुनिया में एक और मुकाम हासिल किया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस से पहली बार हवा से हवा में मार (बीबीआर) करने वाली स्वदेशी मिसाइल एस्ट्रा एमके-1 का परीक्षण पश्चिमी तट पर हुआ। भारत में बनी बीबीआर मिसाइल को एलएसपी-07 तेजस से दागा गया, जिसने लक्ष्य पर सीधा निशाना लगाया। भारतीय वायु सेना



को चीन सीमा पर तनाव के बीच स्वदेशी एस्ट्रा एमके-1 ब्रिगैंड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर 50 मिसाइलों की पहली खेप अक्टूबर 2020 में मिली थी। करीब 100 किलोमीटर की लम्बी दूरी तक हमले करने में सक्षम इस मिसाइल को सुखोई-30 में लैस किया गया था। एस्ट्रा एमके-1 मिसाइलों को लड़ाकु सुखोई से अधिकतम 66 हजार फीट की ऊंचाई पर 4.5 मैक स्पीड के साथ लांच लिया जा सकेगा। लदाख सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना का ऑपरेशन 248 मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया गया था। भारतीय वायु सेना अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस को हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल एस्ट्रा

एमके-1 से लैस करना चाहती है, इसलिए पहली बार 'मेड इन इंडिया' जेट के साथ 'मेड इन इंडिया' मिसाइल दागकर परीक्षण किया गया है। देश के परीक्षण पश्चिमी तट पर बीबीआर मिसाइल को एलएसपी-07 तेजस से दागा गया, जिसने लक्ष्य पर सीधा निशाना लगाया। एस्ट्रा मार्क-1 के बाद भविष्य के लिए दो नए वेरिएंट की योजना बनाई गई है। एस्ट्रा मार्क-2 की मारक क्षमता 160 किमी. होगी, जबकि एस्ट्रा मार्क-3 की अधिकतम रेंज फ्रांस की मिटोरिय मिसाइल के बराबर 340 किमी (210 मील) होगी। इस मिसाइल में नव विकसित ठोस ईंधन डक्टेट रैमजेट (एसएफडीआर) तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के मुताबिक एस्ट्रा मिसाइल 3.6 मीटर (12 फीट) लंबी है, जिसका व्यास 178 मिमी (7.0 इंच) है और इसका वजन 154 किलोग्राम (340 पाउंड) है। एस्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेशर्स से लैस है, इसलिए दुश्मन के प्रयासों को नाकाम करके अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। एस्ट्रा मिसाइल 4.5 मैक की गति तक पहुंचा सकती है और अधिकतम 20 किमी. (66 हजार फीट) की ऊंचाई से संचालित हो सकती है। एस्ट्रा की अधिकतम सीमा हेड-ऑन चेस मोड में 110 किमी. (68 मील) और टेल चेस मोड में 20 किमी. (12 मील) है।

अनुच्छेद 370 मामला : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा संविधान के अन्य विशेष प्रावधानों में हस्तक्षेप का इरादा नहीं

एजेंसी। नई दिल्ली
अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान साइलिस्ट जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को संविधान पीठ के समक्ष कहा कि केंद्र सरकार का उत्तर-पूर्व राज्यों या देश के किसी अन्य भाग में लागू संविधान के विशेष प्रावधानों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा छीनने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दायर एक हस्तक्षेप आवेदन के जवाब में कहा कि हमें अस्थायी प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 370 है, और उत्तर-पूर्व सहित अन्य राज्यों के संबंध में



विशेष प्रावधानों के बीच अंतर को समझना चाहिए। केंद्र सरकार का (संविधान के) किसी भी हिस्से को छूने का कोई इरादा नहीं है, जो उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों को विशेष प्रावधान देता है। अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व मंत्री की ओर से पेश

अधिवक्ता मनीष तिवारी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ द्वारा जो व्याख्या दी जाएगी, उसका अनुच्छेद 371 जैसे अन्य विशेष प्रावधानों, छह उप-भागों पर प्रभाव पड़ेगा, जो उत्तर-पूर्व पर लागू होते हैं। संविधान के भाग क और छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम पर लागू होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 के तहत स्वायत्तता का अंतर्निहित सिद्धांत कभीबेश एक जैसा है। इसलिए, इस मामले में जो भी होगा, उसका अनुच्छेद 371 पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की

सीमा में थोड़ी सी भी आशंका के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। वर्तमान में आप मणिपुर में ऐसी ही एक स्थिति से निपट रहे हैं। एसजी तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों को विशेष प्रावधान देने वाले किसी भी हिस्से को छीनने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि आशंका पैदा करने को कोई जरूरत नहीं है। मैं केंद्र की ओर से उस आशंका को दूर कर रहा हूं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि हमें किसी भी चीज को प्रत्याशा या आशंका में क्यों निपटना चाहिए?

रणवीर सिंह लावी स्पोर्ट के ब्रैंड एम्बेसडर बने



शिल्पा शेट्टी की मजेदार मनोरंजक फिल्म 'सुखी' 22 सितंबर को होगी रिलीज

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की अपकमिंग फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'सुखी' 22 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्देशक सोनल जोशी हैं। 'सुखी' 38 वर्षीय पंजाबी गृहिणी सुखप्रीत 'सुखी' कालरा और उसके दोस्तों की कहानी है, जो 20 साल बाद अपने स्कूल रियूनियन में भाग लेने के लिए दिल्ली जाते हैं। फिल्म में सुखी ढेर सारे अनुभवों और भावनाओं से गुजरते हुए, एक पत्नी और एक माँ के बाद फिर से अपने 17 वर्षीय वर्जन को जो रही है। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर किया और लिखा, 'ये कहानी है मेरी, आपकी, हम सबकी। मिलिए आपकी ही जैसी, सुखप्रीत कालरा यानी की सुखी से और आइए मेरी दुनिया में, 22 सितंबर सिर्फ सिनेमाघरों में'। यह फिल्म सोनल जोशी के निर्देशन की पहली फिल्म है और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विक्रम मल्होत्रा और शिखा शर्मा द्वारा निर्मित है। इसमें शिल्पा के साथ कुशा कपिला, दिलनाज ईरानी, पवलीन गुजराल, चैतन्य चौधरी और अमित साध हैं। फिल्म को राधिका आनंद ने लिखा है, जबकि स्क्रिनप्ले पॉलोमी दत्ता ने लिखी है।

करण जोहर के बयान पर कंगना रनौत का ट्वीट

बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जोहर के बीच का विवाद जगजाहिर है। हाल ही में करण जोहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कंगना रनौत की इमरजेंसी देखने के लिए उत्सुक हैं। इस पर अब कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। करण जोहर हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिल्म 'इंडस्ट्री' के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई सवाल को जवाब दिए। इस कार्यक्रम में करण जोहर से पूछा गया कि आप राजनीतिक घटना पर आधारित कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? उस समय उन्होंने कहा था, मैं 1975 के दौरान देश में लगाए गए आपातकाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित फिल्म इमरजेंसी देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। इस पर अब कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है, पिछली बार उन्होंने कहा था कि वह फिल्म मणिकर्णिका

देखने के लिए उत्सुक हैं। फिर फिल्म रिलीज के हफ्ते में मेरे खिलाफ मानहानि की गई। उस फिल्म में अभिनय करने वाले अभिनेताओं को मुझे बदनाम करने और मेरी फिल्म को नुकसान पहुंचाने के लिए धुगतान भी किया गया था। अब मैं एक बार फिर डरी हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह मेरी फिल्म देखने के लिए उत्सुक हैं।



चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर झारखंड परेड्स एसोसिएशन ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

रांची। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होने पर झारखंड परेड्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं प्रवक्ता संजय सराफ ने हर्ष व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत के इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से देश भर की उम्रों में जुड़ी हुई थी चंद्रयान 3 ने पूरे देश को एक बार फिर से एक कर दिया है, तथा अंतरिक्ष विज्ञान के नए सपनों को साकार किया है, चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग होने पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकलने के बाद अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद आज चांद पर लैंडिंग की, 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को लांच किया गया था। आज यानी 23 अगस्त को मून मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। जो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश में खुशी एवं उत्साह का माहौल है।

खेल दिवस पर 29 अगस्त को फुटबॉल मैच और तीन को ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा आयोजित



रांची। रांची के चुटिया स्थित कार्यालय में बुधवार को क्रीड़ा भारती रांची महानगर की बैठक हुई। बैठक का संचालन क्रीड़ा भारती के प्रांत उपाध्यक्ष मुनचुन राय और रांची महानगर के अध्यक्ष रवि मुंडा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 29 अगस्त को खेल दिवस के कार्यक्रमों की चर्चा की गई। मुनचुन राय ने कहा कि खेल दिवस पर तीन सितंबर को ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर होगी। इसमें 12 से 25 वर्ष के परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा आधे घंटे की होगी। परीक्षा में प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार, तृतीय पुरस्कार 25 हजार और चतुर्थ पुरस्कार 11 हजार की होगी। परीक्षार्थी क्रीड़ा भारती के वेबसाइट में दिए गए लिंक पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फार्म का शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। महानगर अध्यक्ष रवि मुंडा ने कहा कि 29 अगस्त खेल दिवस पर बरियारू स्थित डीआईजी ग्राउंड में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें सात टीमों में भाग लेंगे। प्रथम पुरस्कार 11 हजार और द्वितीय पुरस्कार सात हजार रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने मिजोरम रेलवे पुल हादसे पर जताया दुख

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से हुई जनहानि पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मिजोरम के सैरगं में निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से 17 श्रमिकों की मृत्यु की दुःखद खबर मिली। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

‘जे नाची से बाची’ ही झारखंड की संस्कृति

डा. रामदयाल मुंडा के जीवन से हम सभी को सिख लेनी चाहिए

नवीन मेल संवाददाता। रांची

पद्मश्री डा. रामदयाल मुंडा की जयंती बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमर्जिंग की जाएगी। शाम लगभग 5.45 बजे लगभग 30 किमी की ऊंचाई से श्वैतज स्थिति में लैंडर का संचालित वंश शुरू हुआ। स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम सक्रिय हो गया। रफ ब्रेकिंग चरण के दौरान लैंडर की गति 1,680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाएगी। चंद्रमा से ऊंचाई 7.4 किमी कम कर दी जाएगी। अगला चरण ऊंचाई रोक चरण था जहां ऊंचाई को 6.8 किमी तक कम कर दिया गया था। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसटी) के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे अधिकारियों की नजरें अपने मॉनिटर पर टिकी थीं। लैंडर की स्थिति ऊर्ध्वाधर में बदल गई और यान चंद्रमा के ऊपर 150 मीटर तक मंडराता रहा, तस्वीरें लेता रहा और सुरक्षित लैंडिंग स्थान तय करने के लिए लैंडिंग क्षेत्र का सर्वेक्षण करता रहा। फिर चार में से दो इंजन चालू होने पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए प्राथमिक संचार चैनल आईएसटीआरएसटी, बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होगा जो बदले में लैंडर और रोवर से बात करेगा। हाल ही में, चंद्रमा लैंडर ने चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संचार लिंक स्थापित किया है जो 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और इस तरह एक बैकअप टॉकिंग चैनल है। इस बीच, चंद्रयान-3 का प्रोपेलन मॉड्यूल (ASHP) के साथ कुछ और अवधि के लिए चंद्रमा के चारों ओर घूमना जारी रख रहा है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM3 द्वारा कॉर्पोबुक शैली में कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर चला गया।

सड़क निर्माण की हो...
रही अड़चनें दूर हो सकें।
15 हजार किलोमीटर बन्नी हैं ग्रामीण सड़कें : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना है। ऐसे में इन सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी और मजबूतीकरण से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि एक तरफ सड़कें बन रही हैं और दूसरी तरफ से उखाड़ भी रही हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि 15 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों में 6 हजार किलोमीटर सड़कों का डीपीआर तैयार हो चुका है और 3 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी सड़कें बना रही हैं, उसके निर्माण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक पोर्टल पर सड़कों के निर्माण

पूरे शहर में 676 कैमरों से हो रही है निगरानी

डीआईजी ने आईसीसीसी का किया दौरा

नवीन मेल संवाददाता। रांची

स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी परियोजना इंटीलेजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का जनहित में कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। इसके लेकर रांची रेंज के डीआईजी अनूप विरथर ने बुधवार को रांची स्मार्ट सिटी स्थित इंटीलेजेंट कमांड कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण किया और वहां से रांची पुलिस को सुरक्षा के क्षेत्र में और रांची यातायात पुलिस को यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में क्या सहयोग मिल रहा है, इसकी जानकारी ली। साथ ही डीआईजी ने इस बात की भी जानकारी ली की और भी क्या-क्या उपकरण हैं और कौन-कौन सी तकनीक है, जिनका भविष्य में पुलिस मदद ले सकती है। डीआईजी ने कहा कि स्मार्ट सिटी की ओर से स्थापित इस कमांड सेंटर और शहर में स्थापित विभिन्न उपकरणों का सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है और हमारी कोशिश होगी कि पुलिस



इसका और अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। मौके पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने कहा कि रांची पुलिस यदि स्मार्ट सिटी का इंटीलेजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का शत प्रतिशत इस्तेमाल शुरू कर दे तो राजधानी की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में यह सिस्टम पुलिस के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास वह तकनीकी उपलब्ध है कि हम प्रतिदिन रांची पहुंचनेवाली और रांची से बाहर जाने वाली लाखों

गाड़ियों को 24 घंटे क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। रांची पहुंचने वाली कोई भी गाड़ी स्मार्ट सिटी के सर्विलांस कैमरों से नहीं बच सकती है। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर प्रतिदिन दौड़ने वाली 3.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों का पूरा रिपोर्ट हमारे कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहता है। आज हम एक सेंटर में बैठकर ग्रीन कॉरिडोर से लेकर क्विक रिस्पांस के लिए कई कदम उठा सकते हैं। रांची शहर का रिंग रोड हर जंक्शन पूरी तरह से सर्विलांस कैमरों से कवर्ड है।

उपायुक्त की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय (जीबी) की बैठक आयोजित

कई योजनाओं को मिली स्वीकृति

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची। बुधवार को उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण (आत्मा) शासकीय निकाय जीबी की बैठक आयोजित की गई। समाह्वणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रांची, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी,

जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सचिव बाजार समिति, प्रतिनिधि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण डीआरडीए एवं विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण (आत्मा) रांची द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले वार्षिक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कृषि विस्तार (कृषोन्तति योजना) के तहत 2023-24 के लिए जिला विस्तार कार्यक्रम का मंजूरी दी गई। इसके तहत किसानों का

अंतरराज्यीय, राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण, किसान मेला एवं प्रदर्शनी, प्रतिनिधि जिला ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बंधित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। किसान वैज्ञानिक अन्तर मिलन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची जिले में 2 (दो) कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत जिला स्तर पर एक खरीफ मौसम में तथा एक रबी मौसम में कार्यक्रम आयोजन एवं जिला अंतर्गत कृषि विकास के लिए अनुमोदित कृषक पाठशाला के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

भारत ने रचा स्वर्णिम इतिहास

अंतरिक्ष के क्षेत्र में जोड़ा नया अध्याय : डॉ. लंबोदर

नवीन मेल संवाददाता। रांची आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो के चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने पर कहा है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से हम सब भारतीय गौरवान्वित हैं। भारत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया। आज का दिन हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। भारत ने तकनीकी शक्ति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय का सूत्रपात ही नहीं हुआ है बल्कि



आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में

वैश्विक महाशक्ति बन गया है। यह हम सबों के लिए ऐतिहासिक गौरव एवं अविस्मरणीय क्षण है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक गौरव व सफलता में झारखंड का नाम भी जुड़ गया है। चंद्रयान-3 से संबंधित एसएलपी - सेकंड लॉन्चिंग पैड की डिजाइन रांची के मेकान ने तैयार किया था और उसका निर्माण रांची में एचआईसी में किया गया। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक, तकनीशियन व कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढ़वा

आवश्यक सूचना

(लापता प्रमिला देवी उम्र-24 वर्ष, प्रितम कुमार उम्र-04 वर्ष, संघ्या कुमारी उम्र-02 वर्ष)



मेराल थाना सनहा सं0-17/2023, दिनांक-17.08.2023 में लापता महिला प्रमिला देवी पति-अनिल चौधरी, ग्राम+पो0-हासनदाग, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड, के रहने वाली है। जो दिनांक-06.08.2023 को मेराल SBI Bank में पैसा निकाली नाम पर अपने पुत्र प्रितम कुमार उम्र-04 वर्ष, एवं लड़की संघ्या कुमारी, उम्र-02 वर्ष, को लेकर आयी थी। अभी तक वापस घर नहीं आयी है। इनके परिवार के द्वारा काफी खोजबीन किया गया। परन्तु अबतक पता नहीं चल सका है। अतः आम जनता से अनुरोध है कि लापता महिला प्रमिला देवी, एवं पुत्र प्रितम कुमार एवं बेटी संघ्या कुमारी के बारे में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो तो पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गढ़वा के मो0न0-9431706284 या पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के मो0न0-9431706281 पर सूचित करने की कृपा करें।

हलिया-

नाम- प्रमिला देवी, पति-अनिल चौधरी, ग्राम-हासनदाग, रंग- गोरा, लम्बाई- लगभग 5 फीट, पहनावा- साड़ी पीला रंग निवेदक, पुलिस अधीक्षक, गढ़वा PR 305315 Police(23-24)#D

कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति-अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा

38 वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा

25 अगस्त से 8 सितम्बर 2023 तक

मरणोपरान्त अपनी आँखों को जीवित रखें

नेत्रदान करें दृष्टिविहीन को दृष्टि दें।

- मरणोपरान्त आपकी आँखें नष्ट हो जाती हैं, इसे नष्ट न होने दें।
- मरणोपरान्त नेत्रदान कर दृष्टिविहीनों (अंधों) को दृष्टि दें।
- आँखें अनमोल हैं ये खरीदी एवं बेची नहीं जा सकती हैं।
- जीते जी नेत्रदान का संकल्प ले, मरणोपरान्त अपनी आँखों को दान करें।
- नेत्रदानकर्ता की मृत्यु के 6-8 घंटे के अन्दर नेत्रदान होता है।
- एक नेत्रदानकर्ता से दो दृष्टिविहीनों को दृष्टि मिलती है।
- नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनायें।
- मृत्यु के पश्चात नेत्रदान एक पवित्र कार्य है।

जीवन का अमूल्य वरदान नेत्रहीन को नेत्रदान

(विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें :- अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय स्वयं सेवी संस्था के अस्पताल /आई बैंक।)
निवेदक- जिला स्वास्थ्य समिति-अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति-अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा PR 305301 Lohardaga(23-24).D

पृष्ठ एक के शेष

भारत ने रचा इतिहास, चांद पर...

युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल होती है। सुरक्षित और खतरा-मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमर्जिंग की जाएगी। शाम लगभग 5.45 बजे लगभग 30 किमी की ऊंचाई से श्वैतज स्थिति में लैंडर का संचालित वंश शुरू हुआ। स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम सक्रिय हो गया। रफ ब्रेकिंग चरण के दौरान लैंडर की गति 1,680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाएगी। चंद्रमा से ऊंचाई 7.4 किमी कम कर दी जाएगी। अगला चरण ऊंचाई रोक चरण था जहां ऊंचाई को 6.8 किमी तक कम कर दिया गया था। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसटी) के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे अधिकारियों की नजरें अपने मॉनिटर पर टिकी थीं। लैंडर की स्थिति ऊर्ध्वाधर में बदल गई और यान चंद्रमा के ऊपर 150 मीटर तक मंडराता रहा, तस्वीरें लेता रहा और सुरक्षित लैंडिंग स्थान तय करने के लिए लैंडिंग क्षेत्र का सर्वेक्षण करता रहा। फिर चार में से दो इंजन चालू होने पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए प्राथमिक संचार चैनल आईएसटीआरएसटी, बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होगा जो बदले में लैंडर और रोवर से बात करेगा। हाल ही में, चंद्रमा लैंडर ने चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संचार लिंक स्थापित किया है जो 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और इस तरह एक बैकअप टॉकिंग चैनल है। इस बीच, चंद्रयान-3 का प्रोपेलन मॉड्यूल (ASHP) के साथ कुछ और अवधि के लिए चंद्रमा के चारों ओर घूमना जारी रख रहा है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM3 द्वारा कॉर्पोबुक शैली में कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर चला गया।

सड़क निर्माण की हो...
रही अड़चनें दूर हो सकें।
15 हजार किलोमीटर बन्नी हैं ग्रामीण सड़कें : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना है। ऐसे में इन सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी और मजबूतीकरण से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि एक तरफ सड़कें बन रही हैं और दूसरी तरफ से उखाड़ भी रही हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि 15 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों में 6 हजार किलोमीटर सड़कों का डीपीआर तैयार हो चुका है और 3 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी सड़कें बना रही हैं, उसके निर्माण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक पोर्टल पर सड़कों के निर्माण

मनीष डालमिया व विजय डालमिया (निदेशक मेसर्स मनीष

कां प्राइवेट लिमिटेड) के डालमिया हाउस, 392, ब्लॉक जी, न्यू अलीपुर, कोलकाता आवास - हरि कृष्णा चौधरी व अनिल चौधरी(निदेशक विक्रम फाइनेंस सर्विस लिमिटेड) के अलीपुर कोलकाता स्थित आवास - तनिष्क शोरूम, टाटा चौक, भालपुर रोड, दुमका - प्राणतोष मिश्रा, दंगल पाडा, हिजला रोड, दुमका - पप्पू शर्मा, कुम्हार पाडा, दुमका - अनिल कुमार सिंह, कुम्हार पाडा, दुमका - आरती राय चौधरी, राय बंगला निवासी, कार्टिक्स टाउन, देवघर - अजय केसरी, 14 राम मंदिर रोड, देवघर - विवेक मिश्रा, राय बंगाल आश्रम, केसन रोड, देवघर - भाजपा नेता अभिषेक झा, बीएन झा पथ, देवघर टाउन - काग्रिस नेता मुन्नाम सहाय, हाउस नंबर 21, वार्ड नंबर 7, परमेश्वर दयाल रोड, वारमसिया टीएसपीसी के तीन समर्थक... टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के पहुँचाये जाने वाले आवश्यक दैनिक सामग्री बरामद किया है। छापाकारी अभियान में छत्रपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार, एसआई अजीत कुमार, तिलाल प्रसाद यादव, एसआई सुभाष मल्लिक, हवलदार मन्तु प्रसाद यादव, आरक्षी - 566 सच्चिदा कुमार पासवान, आरक्षी - 561 उमर हुसैन, आरक्षी - 560 अख्तर अंसारी, आरक्षी - 2044 सुभाष कुमार शामिल थे।

साल में दो बार होगी...

अर्थशास्त्री व विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देवराय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, प्रसिद्ध संगीतकार व गायक शंकर महादेवन समेत सदस्य हैं। महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर हैं। समिति के सह-अध्यक्षता प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजुल भार्गव को सौंपी गई है। समिति में भी कृष्णा शास्त्री भी शामिल हैं। वह भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की उच्चाधिकार प्राप्त, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं। 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति' एक स्वायत्त समिति होगी और इसका कार्य कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों का सिलेबस तैयार करना है। तेज बारिश के बीच वज्रपात से... बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उक्त सभी छात्राएं भवनाथपुर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। बुधवार की दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद उक्त चारों छात्राएं अपने घर जा रही थीं, तभी तेज बारिश के बीच वज्रपात होने से गंभीर रूप से घायल हो गईं।

जिला समादेष्टा, का कार्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, लोहरदगा

आवश्यक सूचना

जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी लोहरदगा के विज्ञापन सं0-01/2018 के तहत नव नामांकित ग्रामीण एवं शहरी तकनीकी एवं गैर तकनीकी पुरुष गृह रक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण दिनांक-28.08.2023 से दिनांक-29.10.2023 तक क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र हजारीबाग में, तथा नव-नामांकित ग्रामीण एवं शहरी तकनीकी एवं गैर तकनीकी महिला गृह रक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण दिनांक-28.08.2023 से दिनांक-29.10.2023 तक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा रॉंची में संचालित करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को आदेश दिया जाता है कि आधार कार्ड की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, मेसिंग व अन्य आवश्यक वस्तु हेतु पर्याप्त राशि तथा दैनिक उपयोग का सामान के साथ दिनांक-27.08.2023 के अपराहन तक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा, रॉंची एवं क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र हजारीबाग में आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे।

नोट- दिनांक-25.08.2023 तक जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, लोहरदगा में आकर अपना आगमन पंजी में नाम दर्ज करा लें साथ में दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है।

जिला समादेष्टा PR 305357 (Lohardaga)23-24*D झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी लोहरदगा

विश्व कप शतरंज फाइनल 2023 में प्रज्ञानन्दा ने कार्लसन को ड्रॉ पर रोका

एजेंसी बाकू, अजरबैजान फीडे विश्व कप शतरंज के फाइनल में मात्र 18 वर्ष की आयु में पहुंचकर इतिहास बनाने वाले भारत के आर प्रज्ञानन्दा और विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी और पांच बार के विश्व चैम्पियन मैग्नस कार्लसन के बीच पहला क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर खतम हो गया है और अब सबकी निगाहे दूसरे क्लासिकल मुकाबले पर लगी है जिसमें जीतने वाला खिलाड़ी विश्व कप जीत जाएगा जबकि ड्रॉ होने पर निर्णय टाइब्रेक के जरिये निकाला जाएगा। सफेद मोहरो से खेल रहे प्रज्ञानन्दा ने इस मुकाबले



में अपने वजीर के तरफ के उट्ट के सामने वाले प्यादा दो घर चलकर या यूं कहें की इंग्लिश ओपनिंग खेलकर गेम की शुरुआत की कार्लसन ने भी जवाब में कार्लसन ने अपने दोनों घोड़े बाहर निकालते हुए फोर नाइट्स वेरिगेशन खेला, खेल की 7वीं चाल में कार्लसन को चौकाया-प्रज्ञानन्दा ने

यहां अनुभवी कार्लसन को खेल की सातवीं चाल में अपना 4 प्यादा चलकर चौका दिया, इस चाल का प्रयोग कार्लसन के खिलाफ 2020 में रूस के यान नेपोमनिशो ने किया था, खेर कार्लसन ने समहलकर खेलते हुए प्रज्ञानन्दा को बढ़त बनाने का कोई मौका तो नहीं दिया और प्रज्ञानन्दा की बेहतर स्थिति को भापते हुए लगातार मोहोरो की अदला बदली की, खेल की 13वीं चाल तक दोनों के वजीर भी खेल से बाहर हो गए थे और 35 वीं चाल के बाद जब दोनों के पास एक हाथी, एक घोड़ा और तीन प्यादे थे मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया।

कुछ वर्षों में देश में खेलों में बड़ा बदलाव आया : अनुराग ठाकुर



जयपुर। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में खेलों में बड़ा बदलाव आया है और खेलों इंडिया ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि देश में महिला खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ठाकुर जयपुर के सर्वाई मान सिंह स्टेडियम में 'खेलो इंडिया सेंटर' का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल राज्य का विषय है लेकिन केंद्र सरकार भी देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, 'अगर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करें तो देश के खिलाड़ी निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

एजेंसी। बर्मिंघम (यूके) भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने यहां चल रहे इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईबीएसए) वर्ल्ड गेम्स 2023 में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के बाद, मेन इन ब्लू ने मंगलवार को शोपीस इवेंट में हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ, भारत ने तीन मैचों में दो जीत दर्ज की हैं और बुधवार को बांग्लादेश से भिड़ने पर पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही और टीम ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। हालांकि, वेंकटेश्वर राव दुन्या और सुनील रमेश ने रन आउट किया जिससे इंग्लैंड की पारी का अंततः पतन हो गया। अच्छी स्थिति में दिख रही इंग्लैंड ने विकेट खोना शुरू कर दिया और निधारित 20 ओवरों में 147/5 ही



बना पाई। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज 40 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ कड़ी रखी। 148 रनों का पीछा करते हुए, भारतीय बल्लेबाजों ने मैच के पांचवें ओवर में एक विकेट खोने के बावजूद इंग्लैंड के गेंदबाजों को आराम से खेला।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 6-2 से हराया

एजेंसी। डसेलडोर्फ भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बुधवार को यहां इंग्लैंड को 6-2 से हराकर चार देशों के टूर्नामेंट-डसेलडोर्फ 2023 में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की ओर से नीलम (25वें मिनट), अनु (26वें और 43वें मिनट), सुनेलिता टोपों (35वें मिनट), हिना बानो (38वें मिनट) और मुमताज (40वें मिनट) ने गोल दगे। इंग्लैंड की तरफ से क्लॉडिया स्वेन (16वें मिनट) और चार्लोट बिनगैम (54वें मिनट) ने गोल किए।

पहले क्वार्टर में दोनों टीम ने तेज शुरुआत की लेकिन दोनों ही टीम पहले क्वार्टर में गोल करने में



नाकाम रहीं। दोनों टीम का डिफेंस भी पहले क्वार्टर में काफी मजबूत

रहा। भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी अच्छी शुरुआत की लेकिन मैच

का पहला गोल इंग्लैंड की ओर से स्वेन ने दागा। भारत ने इसके बाद

हमले तेज किए। टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे नीलम ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। मंगलवार को स्पेन के खिलाफ गोल करने वाली अनु ने शानदार मैदानी गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई। मध्यांतर तक भारत 2-1 से आगे था। बढ़त बनाने के बाद आत्मविश्वास से भरे भारत ने तीसरे क्वार्टर में लगातार हमले किए। सुनेलिता ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर स्कोर 3-1 किया। हिना ने स्कोर 4-1 जबकि मुमताज और अनु ने भी भारत की बढ़त को 6-1 तक पहुंचाया। इंग्लैंड ने बिनगैम के गोल से हार के अंतर को कम किया।

सिंधु ओकुहारा से हारीं, लक्ष्य सेन प्री-क्वार्टर में पहुंचे

एजेंसी। कोपेनहेगन (डेनमार्क) दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी.वी. सिंधु मंगलवार को यहां विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में दो पूर्व चैंपियनों के मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हारकर बाहर हो गईं। हालांकि, लक्ष्य सेन ने प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर एक और पदक जीतने की अपनी संभावना बरकरार रखी। 22 वर्षीय लक्ष्य ने कोरिया गणराज्य के जियोन ह्योक-जिन को 36 मिनट में 21-11, 21-12 से हराया। भारत के लिए कुछ और झटके लगे जब वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन को मिश्रित युगल जोड़ी राउंड 64 के मुकाबले में जर्मनी के जोन्स राल्फे जानसन और लिंडा एफ्लर से 21-12, 21-11 से हार गईं। स्विट्जरलैंड के बासेल में 2019 संस्करण में महिला एफल का खिलाव जीतने के लिए फाइनल में ओकुहारा को हराते वाली सिंधु डैनिश राजधानी में 44 मिनट की मुठभेड़ में जापानी स्टा से 21-14, 21-14 से हार गईं। सिंधु, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत और फिर टोक्यो में कांस्य जीता, आमने-सामने की लड़ाई में पुरानी प्रतिद्वंद्वी ओकुहारा



से 10-9 से पीछे हैं और दोनों के बीच कई करीबी मुकाबले हुए हैं। लेकिन मंगलवार को रॉयल एरेना के कोर्ट नंबर 2 पर हुआ मुकाबला एकतरफा रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ी दूसरे गेम में 9-0 की बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही। ओकुहारा ने 9-6 की बढ़त बनाने से पहले पहले गेम में शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई। हालांकि, सिंधु ने 9-9 से बराबरी कर ली, लेकिन जापानी शटलर ने फिर से बढ़त बना ली और 12-10 से आगे बढ़ते हुए 21-14 से पहला गेम जीत लिया। 28 वर्षीय सिंधु के लिए दूसरे गेम की शुरुआत अच्छी रही और

उन्होंने 9-0 की बढ़त बना ली। ओकुहारा, जो बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में 36वें स्थान पर खिसक गई हैं जबकि सिंधु 15वें नंबर पर हैं, उन्होंने अपनी लय वापस हासिल की और लगातार पांच अंक हासिल किए और फिर 10-5 से चार और अंक जीतकर स्कोर 10-9 कर दिया। जापानी शटलर ने 12-12 के स्कोर पर सिंधु को पछड़ दिया और फिर ताकत से आगे बढ़ती गई और 21-14 से गेम जीत लिया, स्पष्ट रूप से अपनी बेहतर फिटनेस के दम पर जीत हासिल की। सिंधु को पहले राउंड में बाई मिली थी। अपने कोरियाई प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलते हुए लक्ष्य ने पहले गेम में शुरुआती बढ़त बनाई और फिर अपनी बढ़त बरकरार रखी।

100 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंचने में असफल रहीं ज्योति याराजी

एजेंसी। बुडापेस्ट भारत की ज्योति याराजी मंगलवार को हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में सातवें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहीं। याराजी, जिन्हें जुलाई में एशियाई चैंपियन का ताज पहनाया गया था, ने 13.05 सेकंड का समय निकालकर अपनी दौड़ में सातवां और 43 के क्षेत्र में 29वां स्थान हासिल किया। केवल 24 एथलीट सेमीफाइनल में पहुंचे। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल के लिए आखिरी क्वालीफायर का समय 12.92 सेकंड था। 123 वर्षीय याराजी ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 12.78 सेकंड



के राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय के साथ कांस्य पदक जीता था। टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता केंद्रा हैरिसन ने 12.24 सेकंड के नए विश्व-समय के साथ हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 800 मीटर हीट में भारत के कृष्ण कुमार भी हार गए। एशियाई चैंपियनशिप के 25 वर्षीय रजत पदक विजेता ने 1:50.36 के समय के साथ फिनिश लाइन पार कर हीट में सातवां स्थान हासिल किया। 24 रेसर सेमीफाइनल में पहुंचे। पुरुषों की 800 मीटर हीट में सेमीफाइनल

के लिए आखिरी क्वालीफायर का समय 1:47.97 था, जबकि जून में पेरिस डायमंड लीग जीतने वाले केन्या के इमैनुएल वाय्योनी 1:44.92 के समय के साथ पहले स्थान पर रहे। भारत के स्टीपलचेजर अविनाश साबले, पुरुषों की ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रवीण चित्रवेल, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंपर एल्डोज पॉल और पुरुषों की ट्रिपल जंप में एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अब्बुकर उन प्रमुख भारतीय एथलीटों में से थे, जो पहले क्वालीफाईंग राउंड से आगे बढ़ने में असफल रहे थे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा शुरुआत को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स दूसरी बार बर्नी मां



वाशिंगटन। तेईस बार की ग्रैंडस्लैम चैम्पियन सेरेना विलियम्स ने टेनिस स्टा के रूप में अपना आखिरी मैच खेलने के ठीक एक साल बाद बेटो को जन्म दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। 41 वर्ष की सेरेना और उनके पति एलेक्सिस ओहानियन की यह दूसरी संतान है। उनकी पहली बेटो ओलोपिया का जन्म 2017 में हुआ था। सेरेना का आखिरी टूर्नामेंट 2022 अमेरिकी ओपन था जिसमें वह तीसरे दौर तक पहुंची थी।

एशियन जूनियर वुशु प्रतियोगिता सम्पन्न भारतीय वुशु दल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य के साथ भारत लौटा

एजेंसी। मकाऊ मकाऊ में चल रहे 11वें एशियन जूनियर वुशु प्रतियोगिता में भाग ले कर भारतीय वुशु दल वापस लौटा गया। इस दल में तीस खिलाड़ी सहित दस पदाधिकारी भी शामिल थे। इस दल ने प्रतियोगिता में अपना सफल प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। दल की तरफ से रमेश मुंडा और ध्रुव ने स्वर्ण, राहुल कुमार ने रजत जबकि जीतीश सिंह, अमन, तानिष नागर, नूतनमथान निखिल, लिथ्योई गनबी लातोनजाम, अनिरुद्ध ने कांस्य पदक जीते। दल के ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद शिवेंद्र दुवे ने बताया कि भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने सानाद और ताऊलू दोनों ही वर्गों में अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और



पदक जीते। इस अवसर पर मौजूद कविता सिंह, उदय साहू और साथ में मौजूद, कुमुद प्रसाद साहू और शैलेन्द्र कुमार ने खिलाड़ियों की हीसला अफजाई की। सुहेल अहमद ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का हीसला काफी बुलंद है और हम आगामी एशियन गेम्स और अन्य प्रतियोगिताओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। भारतीय दल की इस सफलता पर

झारखंड वुशु एसोसिएशन के पदाधिकारियों डॉ प्रदीप वर्मा, डॉ अंशु साहू, मिथलेश साहू, प्रोफेसर मुकुंद मेहता, शशिकांत पांडे, गोकुलानंद मिश्र, रजि अहमद, रबेश कुमार, दीपक गोप, अमरेंद्र दत्त द्विवेदी, प्रियदर्शी अमर, वाहिद अली, विमला टोपों, सुशांति टोपों, आशीष कुमार, प्रतिमा कुमारी, चंचल भट्टाचार्य, शैलेन्द्र दुवे आदि ने बधाई दी है।

टीम इंडिया ने मिलकर देखी चंद्रयान 3 की लैंडिंग, बजाई तालियां



नई दिल्ली। चंद्रयान 3 की आखिरकार चांद पर लैंडिंग होते ही टीम इंडिया ने भी जश्न मनाया। टीम इंडिया इस वक्त आयरलैंड में तीन टी 20 मैचों की सीरीज खेल रही है। तीसरा टी20 शुरू होने से पहले डेड घंटे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने मिलकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी और उसके लैंड करते ही तालियां बजाते हुए चीयर्स किया। बीसीसीआई (इउउक) ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर एक वीडियो डाली है जिसमें पूरी टीम इंडिया काफी खुश दिख रही है।

टूर्नामेंट आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग

मुजीब उर रहमान ने लगाई बड़ी छलांग

एजेंसी। दुबई पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ और अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने श्रीलंका के हंबनटोटा में दोनों टीमों के बीच श्रृंखला के उद्घाटन के ठीक एक दिन बाद बुधवार को अपडेट की गई आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। राउफ ने 18 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान के 201 रन के जवाब में अफगानिस्तान को 19.2 ओवर में सिर्फ 59 रन पर आउट करने में मदद मिली, जिससे उन्हें सात स्थान का फायदा हुआ और उन्होंने इस साल मई में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 42वें स्थान को पीछे छोड़ते हुए करियर के सर्वश्रेष्ठ 36वें स्थान पर पहुंच गए। रहमान, जिन्होंने अतीत में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग का आनंद लिया था, 3-33 के आंकड़े के साथ तीन स्थान आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनके साथी मोहम्मद नबी



अब सूची में 11वें स्थान पर हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पोल पोजीशन पर हैं। मैच में सर्वाधिक 61 रन बनाने वाले पाकिस्तान के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक एक स्थान के फायदे से कप्तान बाबर अजाज (880 रेटिंग अंक) के नेतृत्व वाली बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान तीन पायदान आगे बढ़कर 58वें स्थान पर पहुंच गए हैं, भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (743 रेटिंग अंक) चौथे स्थान पर हैं। टी20 रैंकिंग अपडेट में, भारत

द. अफ्रीका क्रिकेट का ऐलान, महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी समान मैच फीस जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में पुरुष और महिला क्रिकेटर्स दोनों को अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए समान मैच फीस मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यह देश भी महिला खिलाड़ियों को पुरुष टीम के समान ही सैलरी देने वाले देशों की लिस्ट में जुड़ चुका है। न्यूजीलैंड और भारत के साथ अब द.अफ्रीका भी पुरुष और महिला क्रिकेट के बीच समानता लाने की कड़ी में जुड़ चुका है। इस बदलाव की शुरुआत इस साल तब हुई जब आईसीसी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें आईसीसी आयोजनों में पुरुषों और महिलाओं की टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि रखी गई है। देश भर के क्रिकेट जगत की प्रमुख



हस्तियां मंगलवार को तशवाने में एकत्रित हुईं और अपनी घरेलू महिला प्रतियोगिता की जल्द शुरुआत होने के बारे में बात की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। यह है। यूई के वृत्त आनंद बल्लेबाजों में 56वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर अयान अफजल खान गेंदबाजी रैंकिंग में 62 स्थान ऊपर 116वें

दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर्स के लिए मैच फीस में बदलाव अगले महीने शुरू होगा जब वे छह मैचों के सफेद गेंद दौर के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेंगी। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए पिछले 18 महीने शानदार रहे, इस दौरान विश्व कप में भी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। न केवल महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, पुरुष के समान मैच फीस अर्जित करेंगी, बल्कि महिलाओं की घरेलू लीग भी पेशेवर होगी। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के सीईओ फोलेत्सी मोसेकी ने कहा, 'इधरेलू लीग को पेशेवर बनाने का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर से बेहतर मौका देना है, साथ ही नई पीढ़ी को प्रेरित करके महिला क्रिकेट को और आगे बढ़ाना है।

NOURISHES HAIR FROM WITHIN AND GIVES IT A HEALTHY SHINE

FOR SOFTER SHINIER HAIR